



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 26—जून 1, 2007 (ज्येष्ठ 5, 1929)

No. 21]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 26—JUNE 1, 2007 (JYAISTHA 5, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

तटरक्षक मुख्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई 2007

सं. 243, दिनांक 25 अप्रैल 2007—राष्ट्रपति तटरक्षक में निम्नलिखित को उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथि से सहायक कमांडेंट (जीडी/ तकनीकी) के रूप में नियुक्त करते हैं :--

सामान्य ड्यूटी

नाम	नियुक्ति	कार्य आरम्भ तिथि	वैयक्तिक नंबर
1	2	3	4
(सर्वश्री)			
एम कुमार	दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि पर वेतनमान रुपये 8,000-275-13,500/- में सहायक कमांडेंट (जीडी/ पीएन) के रूप में नियुक्त	26 जून 06	0663-ई
जे डी धयालन	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0664-एल

1	2	3	4
(सर्वश्री)			
ए यादव	दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि पर वेतनमान रुपये 8,000-275-13,500/- में सहायक कमांडेंट (जीडी/ पीएन) के रूप में नियुक्त	26 जून 06	0665-एल
एम के सोनी	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0666-एम
ए के यादव	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0667-पी
एन आर सिंह	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0668-क्यू
के एस अधिकारी	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0669-एस
बी दत्त	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0670-वी
ए एस अली	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0671-एक्स
ए के पाण्डे	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0672-सी
विकास त्रिपाठी	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0673-डी
टी एन कोटाम्बे	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0674-ई
कोस्तुब मलये	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0675-जे
बी इलावरसन	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0676-एल
एम के धीमन	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0677-एम
टी यू मोती	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0678-वी

1	2	3	4
(सर्वश्री)			
एस जे राय	दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि पर वेतनमान रुपये 8,000-275-13,500/- में सहायक कमांडेंट (जीडी/पीएन) के रूप में नियुक्त	26 जून 06	0679-क्यू
बी डी सिंह	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0680-एस
एम सिंह	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0681-बी
के वी सुम्बरिया	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0682-एक्स
पी के शर्मा	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0683-सी
ई पिपलानी	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0684-डी
पी वर्गीस	-यथोक्त-	28 अगस्त 06	0685-ई
रिथिन थम्बन के वी	-यथोक्त-	26 दिसम्बर 06	0686-जे
एस सेदावत	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0687-एल
ए के श्रीवास्तवा	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0688-एम
रमनजीत सिंह राणा	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0689-पी
डी के शर्मा	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0690-क्यू
कुनाल कुमार	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0691-एस
सुनील नेगी	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0692-बी
टी एन नगामलियन	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0693-एक्स
हितेश कुमार	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0694-सी
अनुज नरवाल	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0695-डी
एम एस भारम्बे	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0696-ई
राजिन्द्र कुमार	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0697-जे
बी विनोद कुमार	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0698-एल
ए एलेक्स अनंत	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0699-एम
अरुण कुमार आर	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0700-पी
धीरज सिंह खरियल	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0701-क्यू
उमाकान्त मंडल	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0702-एस
हरीश कुमार विजेन्द्रन	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0703-बी
एस जे शाहपुरकर	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0704-एक्स
अखिल गुलेरिया	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0705-सी
राकेश कुमार राणा	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0706-डी
ए रतूडी	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0707-ई
विशाल वर्मा	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0708-जे
ललीत बुडाकोटी	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0709-एल
ए एल आक्रिष	-यथोक्त-	04 जनवरी 07	0710-एम
<u>तकनीकी</u>			
साई चन्द्रन बी	दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि पर वेतनमान रुपये 8,000-275-13,500/- में सहायक कमांडेंट (तकनीकी) के रूप में नियुक्त	26 जून 06	4145-एस
के यूसफ अली	-यथोक्त-	28 अगस्त 06	5096-ई
पी के एम अली	-यथोक्त-	-यथोक्त-	4146-बी
आई जे सिंह	-यथोक्त-	-यथोक्त-	4147-एक्स
जॉर्ज बेबी	-यथोक्त-	-यथोक्त-	4148-सी
एम अबुसली	-यथोक्त-	-यथोक्त-	5097-जे

1	2	3	4
(सर्वश्री)			
डी डी शर्मा	दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि पर वेतनमान रुपये 8,000-275-13,500/- में सहायक कमांडेंट (तकनीकी) के रूप में नियुक्त	28 अगस्त 06	5098-एल
एस कुशवाहा	-यथोक्त-	29 जनवरी 07	5099-एम
ए बी हलदर	-यथोक्त-	-यथोक्त-	5100-पी

बी के तिवारी
निदेशक (नौसेना-II)

नेवी ब्राँच

नौसेना मुख्यालय

सं. 244, दिनांक 24 अप्रैल 2007--राष्ट्रपति सहर्ष सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के श्री जे एस जोशी, निदेशक (वर्ग 'क' राजपत्रित) वेतनमान रु. 14,300-400-18,300 की नियुक्ति सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियम 2001 के नियम 7(8) के अन्तर्गत दिनांक 04.04.06 से 31.08.06 तक की अवधि तक या नियमित पदधारक उपलब्ध होने तक या अधिकारी के सेवा निवृत्त होने तक जो भी पहले हो, उस समय तक बढ़ाते हैं।

ये नियुक्ति पूर्णतया कामचलाऊ व्यवस्था के आधार पर की गई है तथा प्रशासकीय कारणों से रद्द की जा सकती है।

राष्ट्रपति सहर्ष सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के श्री जे एस जोशी, निदेशक (वर्ग 'क' राजपत्रित) वेतनमान रु. 14,300-400-18,300 की नियुक्ति सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियम 2001 के नियम 7(8) के अन्तर्गत दिनांक 01.09.06 से 28.02.07 तक की अवधि तक या नियमित पदधारक उपलब्ध होने तक या अधिकारी के सेवा निवृत्त होने तक जो भी पहले हो, उस समय तक बढ़ाते हैं।

ये नियुक्ति पूर्णतया कामचलाऊ व्यवस्था के आधार पर की गई है तथा प्रशासकीय कारणों से रद्द की जा सकती है।

राष्ट्रपति सहर्ष सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के श्री जे एस जोशी, निदेशक (वर्ग 'क' राजपत्रित) वेतनमान रु. 14,300-400-18,300 की नियुक्ति सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियम 2001 के नियम 7(8) के अन्तर्गत दिनांक 01.03.07 से 31.08.07 तक की अवधि तक या नियमित पदधारक उपलब्ध होने तक या अधिकारी के सेवा निवृत्त होने तक या जो भी पहले हो, उस समय तक बढ़ाते हैं।

ये नियुक्ति पूर्णतया कामचलाऊ व्यवस्था के आधार पर की गई है तथा प्रशासकीय कारणों से रद्द की जा सकती है।

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित वैयक्तिक सहायकों की निजी सचिव (वर्ग 'ख' राजपत्रित) वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- के रूप में अस्थाई नियुक्ति की अवधि को दिनांक 01.06.2006 से आगे 31.12.2006 तक अथवा चयन सूची से नियमित व्यक्तियों के उपलब्ध होने अथवा उक्त व्यक्तियों के सेवानिवृत्त होने के समय में से जो भी पहले हो, सशस्त्र सेना मुख्यालय की आशुलिपिक सेवा में, अस्थाई आधार पर बढ़ाते हैं।

- (क) श्रीमती मोहिनी अगरवाल (ख) श्रीमती संतोष तनवर
(ग) श्रीमती चित्रा दत्ता (घ) श्री विनय ग्रोवर
(ङ) श्री जी एस जस्सल (च) श्रीमती सी के दिल्ली
(छ) श्रीमती मंजु साहनी (ज) श्रीमती किरण कालरा
(झ) श्रीमती निर्मल (ण) श्रीमती वीना खत्री
(ट) श्रीमती पदमा कुमारी (ठ) श्रीमती एम आर अरोड़ा
(न) श्रीमती रीता कलसी (य) श्रीमती अमरजीत कौर
(र) कुमारी जे. विजयालक्ष्मी (ल) श्रीमती मोहिनी पंजाबी
(स) श्री एन लक्ष्मी नरसिम्हन

उपर्युक्त अधिकारियों की निजी सचिव के रूप में नियुक्ति सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2004 के अधीन निम्नलिखित शर्तों के आधार पर है :--

- (क) ये नियुक्तियाँ पूर्णतः अस्थायी आधार पर होंगी तथा प्रशासनिक कारणों से बिना सूचना दिए समाप्त की जा सकती हैं।
(ख) उपर्युक्त पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए उनका न तो कोई दावा होगा न ही उनकी अस्थायी नियुक्ति की अवधि को वरिष्ठता के लिए गिना जाएगा।

शंकर सिंह
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

सं. 245, दिनांक 20 अप्रैल 2007--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :--

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

मैकनाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार शिव करन सिंह (सं. 14910462एम अब जेसी-420617एल),
09 दिसम्बर 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जाती है।)

हवलदार करतार सिंह (सं. 14905804एल अब जेसी-420618एन),
22 दिसम्बर 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जाती है।)

हवलदार राजबीर सिंह (सं. 14915118एल अब जेसी-420619डब्ल्यू),
22 नवम्बर 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 अक्टूबर 2006 से दी जाती है।)

हवलदार भक्त बन्धु मोहंता (सं. 14910722एम अब जेसी-420620एल), 20 दिसम्बर 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2006 से दी जाती है।)

हवलदार हेमा राम जाट (सं. 14905826के अब जेसी-420621एन),
11 नवम्बर 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2006 से दी जाती है।)

हवलदार राजेन्द्र (सं. 14906846के अब जेसी-420622डब्ल्यू),
23 नवम्बर 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2006 से दी जाती है।)

हवलदार करतार सिंह (सं. 14908401डब्ल्यू अब जेसी-420623वाई),
15 नवम्बर 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 नवम्बर 2006 से दी जाती है।)

हवलदार नंदन सिंह (सं. 14907368एक्स अब जेसी-420624एफ),
06 दिसम्बर 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 नवम्बर 2006 से दी जाती है।)

हवलदार लाल सिंह (सं. 14912538ए अब जेसी-420625के),
30 दिसम्बर 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 नवम्बर 2006 से दी जाती है।)

हवलदार दया नंद पाण्डेय (सं. 14903949एक्स अब जेसी-420626एम), 01 दिसम्बर 2006

हवलदार महीपाल सिंह (सं. 14909434एन अब जेसी-420627पी),
13 दिसम्बर 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाती है।)

हवलदार दिलीप सिंह (सं. 14917706एक्स अब जेसी-420628एक्स),
08 जनवरी 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाती है।)

हवलदार ब्रिज भान सिंह (सं. 14908686एन अब जेसी-420629ए),
01 दिसम्बर 2006

हवलदार रामजी महतो (सं. 14911459वाई अब जेसी-420630पी),
20 जनवरी 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाती है।)

हवलदार करतार चन्द (सं. 14907722एफ अब जेसी-420631एक्स),
23 दिसम्बर 2006 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाती है।)

हवलदार ओंकार सिंह (सं. 14910011एम अब जेसी-420632ए),
15 जनवरी 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 28 दिसम्बर 2006 से दी जाती है।)

हवलदार स्वरूप सिंह (सं. 14911949एम अब जेसी-420633एच),
10 जनवरी 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाती है।)

हवलदार पी बालारमन (सं. 14908412एच अब जेसी-420634एल),
02 जनवरी 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाती है।)

हवलदार मदन सिंह (सं. 14908430एल अब जेसी-420635एन),
02 जनवरी 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाती है।)

हवलदार गीदा राम (सं. 14905251ए अब जेसी-420636डब्ल्यू),
02 जनवरी 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाती है।)

हवलदार लोटन सिंह (सं. 14905386एफ अब जेसी-420637वाई),
02 जनवरी 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाती है।)

हवलदार टी राधा कृष्णन (सं. 14908119एल अब जेसी-420638एफ),
04 जनवरी 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाती है।)

हवलदार राज कुमार सिंह (सं. 14915340एम अब जेसी-420639के),
04 जनवरी 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाती है।)

हवलदार मंगल सैन चौहान (सं. 14906490एफ अब जेसी-
420640वाई), 05 जनवरी 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाती है।)

हवलदार संतोष कुमार (सं. 14907928वाई अब जेसी-420641एफ),
05 जनवरी 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाती है।)

हवलदार शंकरप्पा हड़पड (सं. 14908258पी अब जेसी-420642के),
05 जनवरी 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाती है।)

हवलदार रामायण प्रताप सिंह (सं. 14907735वाई अब
जेसी-420643एम), 06 जनवरी 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाती है।)

हवलदार शम्भु बहादुर गुरूंग (सं. 14908509एन अब
जेसी-420644पी), 19 जनवरी 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 05 जनवरी 2007 से दी जाती है।)

हवलदार जय भगवान (सं. 14908752एल अब जेसी-420645एक्स),
05 जनवरी 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाती है।)

क्वचित कोर

नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार बलबीर सिंह (सं. 1079565ए अब जेसी-242013एच),
20 दिसम्बर 2006 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाती है।)

दफादार जगमेन्दर सिंह (सं. 15465740एच अब जेसी-242020वाई),
01 जनवरी 2007

दफादार जोरा सिंह (सं. 1075355एच अब जेसी-242023एम),
01 जनवरी 2007

दफादार परमजीत सिंह (सं. 1077729एम अब जेसी-242024पी),
01 जनवरी 2007

दफादार सुखविन्दरजीत सिंह (सं. 1077063वाई अब
जेसी-242025एक्स), 11 जनवरी 2007 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाती है।)

दफादार अचार सिंह (सं. 1077596एफ अब जेसी-242027एच),
11 जनवरी 2007 *

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाती है।)

दफादार कृष्ण पाल सिंह (सं. 1075267एम अब जेसी-242030एच),
05 जनवरी 2007*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जाती है)

दफादार रनजीत सिंह (सं. 1075601एच अब जेसी-242032एन), 05
जनवरी 2007*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2006 से दी जाती है)

दफादार शेर सिंह (सं. 1073316एल अब जेसी-242036के), 13 जनवरी
2007*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाती है)

दफादार शिशुपाल सिंह (सं. 1078160एच अब जेसी-242039एक्स),
16 जनवरी 2007*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाती है)

दफादार योग राज (सं. 1075002एच अब जेसी-242043ए), 10 जनवरी
2007*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2006 से दी जाती है)

दफादार हुकम चन्द (सं. 1074991के अब जेसी-242045एल),
04 जनवरी 2007*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाती है)

दफादार संतोष कुमार (सं. 1071819एक्स अब जेसी-242048वाई),
04 जनवरी 2007*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाती है)

दफादार गोपाल सिंह (सं. 1078880के अब जेसी-242049एफ),
06 जनवरी 2007*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाती है)

दफादार यशपाल सिंह (सं. 1071867एक्स अब जेसी-242051वाई),
04 जनवरी 2007*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाती है)

दफादार हरदीप सिंह (सं. 1076679ए अब जेसी-242052एफ),
04 जनवरी 2007*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाती है)

दफादार रमेश कुमार पूनीया (सं. 1078561एक्स अब जेसी-
242056एक्स), 16 जनवरी 2007*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाती है)

दफादार जय सिंह (सं. 1075570एन अब जेसी-242057ए), 13 जनवरी
2007*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाती है)

दफादार भीम सिंह (सं. 1076693एम अब जेसी-242058एच),
13 जनवरी 2007*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाती है)

दफादार सामु कुट्टी एम एस (सं. 1077896एच अब जेसी-
242063एन), 13 जनवरी 2007*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाती है)

दफादार अशोक कुमार (सं. 1073542एच अब जेसी-242064डब्ल्यू),
03 जनवरी 2007*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाती है)

दफादार विजय कुमार (सं. 1076677पी अब जेसी-242065वाई), 03
जनवरी 2007*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाती है)

जोस थॉमस
अवर सचिव

नियमित सेना

सेना सेवा कोर (पूर्ति)

सं. 246, दिनांक 21 अप्रैल 2007--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियों
करते हैं :--

सूबेदार लिपिक (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार भुवनेश्वर समंता (जेसी-642065एम), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार अमर सिंह (जेसी-642070एक्स), 03 फरवरी 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता
01 फरवरी 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रघुबीर सिंह (जेसी-642072एच), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार भरत सिंह (जेसी-643018डब्ल्यू), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार लिपिक (जीडी) के रैंक में

हवलदार रघुनाथ दास (सं. 6379026एक्स अब जेसी- 664281ए),
01 फरवरी 2007

हवलदार भरत भूशन (सं. 6379338एन अब जेसी-664280एक्स),
01 फरवरी 2007

हवलदार जयदेव प्रधान (सं. 6385581एफ अब जेसी- 664278ए),
01 फरवरी 2007

हवलदार चंद्र मोहन सिंह (सं. 6387065एल अब जेसी- 664279एच),
01 फरवरी 2007

तोपखाना रेजिमेंट

सबस्टैंटिव सूबेदार (जी डी) के पद में

नायब सूबेदार सुरज भान (जेसी-266348वाई), 05 जनवरी 2007/
01 दिसम्बर 2006 *

नायब सूबेदार सोम प्रकाश (जेसी-266904के), 01 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार काशीमसा तेनहाली (जेसी-267350एच), 13 दिसम्बर
2006/01 दिसम्बर 2006 *

नायब सूबेदार चन्द्र भान यादव (जेसी-267559एन), 02 दिसम्बर
2006/01 दिसम्बर 2006 *

नायब सूबेदार प्रताप चन्द्र स्वेन (जेसी-266779एल), 10 मार्च 2007/01
जनवरी 2007 *

नायब सूबेदार सुरेश चन्द्र पाण्डेय (जेसी-266989एल), 16 मार्च
2007/01 जनवरी 2007 *

नायब सूबेदार हरचन्द (जेसी-267612एन), 04 मार्च 2007/01 जनवरी
2007 *

नायब सूबेदार चित्रा रंजन गोगई (जेसी-266726एम), 24 दिसम्बर
2006/ 20 अगस्त 2006 *

नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद (जेसी-266727पी), 27 दिसम्बर 2007/
20 अगस्त 2006 *

नायब सूबेदार महेन्द्र प्रसाद (जेसी-267582एफ), 17 फरवरी 2007/
01 फरवरी 2007 *

नायब सूबेदार सुरेन्द्र कुमार (जेसी-265178एन), 22 जनवरी 2007/
01 जनवरी 2007 *

नायब सूबेदार सुखदेव सिंह (जेसी-265809एल), 02 जनवरी 2007/01
जनवरी 2007 *

नायब सूबेदार अजित सिंह (जेसी-265835एम), 15 फरवरी 2007/01
जनवरी 2007 *

नायब सूबेदार सुरेश चन्द्र ओझा (जेसी-265971एच), 09 फरवरी
2007/01 जनवरी 2007 *

नायब सूबेदार सूबे सिंह (जेसी-266235डब्ल्यू), 13 जनवरी 2007/01
जनवरी 2007 *

नायब सूबेदार कपिल देव यादव (जेसी-266268एफ), 26 जनवरी
2007/01 जनवरी 2007 *

नायब सूबेदार केहरी सिंह (जेसी-266373एक्स), 02 फरवरी 2007/01
जनवरी 2007 *

नायब सूबेदार राधे श्याम (जेसी-266875ए), 16 जनवरी 2007/01
जनवरी 2007 *

नायब सूबेदार फुल सिंह (जेसी-267037एक्स), 23 फरवरी 2007/01
जनवरी 2007 *

नायब सूबेदार राम नरेश (जेसी-267294पी), 13 जनवरी 2007/01
जनवरी 2007 *

नायब सूबेदार श्री भगवान यादव (जेसी-267725डब्ल्यू), 09 जनवरी
2007/01 जनवरी 2007 *

नायब सूबेदार बारमेश्वर पाण्डेय (जेसी-265800डब्ल्यू), 27 फरवरी
2007/01 जनवरी 2007 *

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार मोटू सिंह (सं. 14396276ए अब जेसी-269750एन),
03 जुलाई 2006/01 अप्रैल 2006 *

बीएचएम लाल सिंह (सं. 14367841के अब जेसी-269751डब्ल्यू),
25 जून 2006/01 मई 2006 *

हवलदार मोहन लाल (सं. 14476527एम अब जेसी-269752वाई),
07 जुलाई 2006/01 जून 2006 *

हवलदार महेन्द्र कुमार (सं. 14365856एन अब जेसी-269753एफ),
09 अगस्त 2006/01 जून 2006 *

हवलदार काटे सुरेश ईश्वर (सं. 14376491के अब जेसी-269754के),
26 अगस्त 2006/01 जून 2006 *

हवलदार राम कुमार (सं. 14376834पी अब जेसी-269755एम),
09 अक्टूबर 2006/01 जुलाई 2006 *

हवलदार प्रदीपन चलील मदाफुरक्कल (सं. 14368367एन अब
जेसी-269756पी), 11 अक्टूबर 2006/01 जुलाई 2006 *

हवलदार राजेन्द्रन पिल्ले आर (सं. 14371516एफ अब जेसी-
269757एक्स), 19 अगस्त 2006/01 अगस्त 2006 *

हवलदार बालमुरुगन टी (सं. 15101026एच अब जेसी-269758ए),
01 सितम्बर 2006/01 अगस्त 2006 *

बी एच एम गुरमीत सिंह (सं. 14479067एफ अब जेसी-269759एच),
15 अक्टूबर 2006/03 अगस्त 2006 *

बीएचएमएल धुराई पन्डीमन (सं. 14493917एल अब
जेसी-269760एक्स), 01 सितम्बर 2006

हवलदार उलाहम्न पी जे (सं. 14482401एच अब जेसी-269761ए),
22 सितम्बर 2006/01 सितम्बर 2006 *

हवलदार जी एस कन्नेश्वरा राव (सं. 14481672एन अब
जेसी-269762एच), 27 सितम्बर 2006/01 सितम्बर 2006 *

बीएचएम कुलवन्त सिंह (सं. 14483406एन अब जेसी-269763एल),
01 अक्टूबर 2006

हवलदार राज बहादुर (सं. 14495335के अब जेसी-269764एन),
01 अक्टूबर 2006

हवलदार लोगानाधन डी (सं. 14388387एच अब जेसी-269765डब्ल्यू),
18 नवम्बर 2006/01 अक्टूबर 2006 *

हवलदार सुभा चन्द (सं. 14375010ए अब जेसी-269718वाई),
28 जून 2006/01 अप्रैल 2006 *

हवलदार बिनय कुमार बिश्वास (सं. 15105693एन अब जेसी-269719एफ), 30 जुलाई 2006/09 मई 2006 *

हवलदार ईश्वर सिंह (सं. 14361615डब्ल्यू अब जेसी-269720डब्ल्यू),
10 सितम्बर 2006/01 जून 2006 *

हवलदार तरलोक सिंह (सं. 14481309एक्स अब जेसी-269721वाई),
24 अगस्त 2006/01 जून 2006 *

हवलदार सूबे सिंह यादव (सं. 14366231एल अब जेसी-269722एफ),
08 अगस्त 2006/01 जून 2006 *

बीएचएम अभय सिंह यादव (सं. 15101155एन अब जेसी-269723के),
22 जुलाई 2006/01 जून 2006 *

आरएचएम राम सिया पाल (सं. 14372146वाई अब जेसी-269724एम), 12 अगस्त 2006/01 जून 2006 *

बीएचएम जोगिन्दर सिंह (सं. 14373195एन अब जेसी-269725पी),
20 सितम्बर 2006/01 जून 2006 *

हवलदार जरनैल सिंह (सं. 14482789वाई अब जेसी-269726एक्स),
02 अगस्त 2006/01 जून 2006 *

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 14492666ए अब जेसी-269727ए),
08 सितम्बर 2006/01 जून 2006 *

हवलदार जसबीर सिंह (सं. 15103264एन अब जेसी-269728एच),
02 सितम्बर 2006/25 जून 2006 *

बीएचएम कुलदीप सिंह (सं. 14391177एन अब जेसी-269729एल),
08 अगस्त 2006/01 अगस्त 2006 *

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 14481590एल अब जेसी-269730ए),
10 अक्टूबर 2006/15 अगस्त 2006 *

बीएचएम अवतार सिंह (सं. 14374349एफ अब जेसी-269731एच),
25 सितम्बर 2006/01 सितम्बर 2006 *

हवलदार नरेश चन्द्र महन्ती (सं. 14376964एक्स अब जेसी-269732एल), 10 अक्टूबर 2006/01 सितम्बर 2006 *

हवलदार राकेश बाबू (सं. 14378936के अब जेसी-269733एन),
18 अक्टूबर 2006/01 अक्टूबर 2006 *

*(ज्येष्ठता प्राप्त)

पी रामा शास्त्री
अवर सचिव

सं. 247, दिनांक 20 अप्रैल 2007--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

कोर आफ इंजीनियर्स

बम्बई इंजीनियर ग्रुप

सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार (जीडी) इन्द्र सिंह (जेसी-347996एफ), 02 सितम्बर 2006

सूबेदार (जीडी) राजा सिंह (जेसी-347986एक्स), 01 सितम्बर 2006

सूबेदार (जीडी) रामा प्रसाद (जेसी-348039एच), 07 अक्टूबर 2006

सूबेदार (जीडी) परमिंदरजीत सिंह (जेसी-348180के), 01 नवम्बर 2006

सूबेदार (जीडी) राम किशन सैनी (जेसी-348046वाई), 02 नवम्बर 2006

सूबेदार (जीडी) ईश्वर सिंह शर्मा (जेसी-348110एल), 02 दिसम्बर 2006

सूबेदार मेजर (क्लर्क जीडी) के रैंक में

सूबेदार (क्लर्क जीडी) मिल महिपाल सिंह (जेसी-347273एम),
03 अक्टूबर 2006

सूबेदार (क्लर्क जीडी) उपेन्द्र नाथ राय (जेसी-347291पी),
26 जुलाई 2006

सूबेदार (क्लर्क जीडी) रामदिया पटवा (जेसी-347318एफ),
03 अक्टूबर 2006

सूबेदार (क्लर्क जीडी) सतनाम चंद कम्बोज (जेसी-347347डब्ल्यू),
06 अक्टूबर 2006

सूबेदार (क्लर्क जीडी) जुगल किशोर गुप्ता (जेसी-347501के),
02 सितम्बर 2006

सूबेदार (क्लर्क जीडी) रेशम सिंह (जेसी-347395डब्ल्यू),
18 सितम्बर 2006

सूबेदार (क्लर्क जीडी) करमबीर सिंह (जेसी-347212पी),
12 अक्टूबर 2005

सूबेदार (क्लर्क जीडी) रमेश चंद (जेसी-347362एल),
02 नवम्बर 2006

सूबेदार (क्लर्क जीडी) राम दयाल शर्मा (जेसी-347496के),
26 अक्टूबर 2006

सूबेदार (क्लर्क जीडी) शेर सिंह रावल (जेसी-347450एफ),
01 दिसम्बर 2006

सूबेदार (क्लर्क जीडी) ओम प्रकाश (जेसी-347455ए),
01 दिसम्बर 2006

सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार (जीडी) खलील अहमद मोहम्मद (जेसी- 349249पी),
15 मई 2006

नायब सूबेदार (जीडी) इसलामुद्दीन (जेसी-349262वाई),
04 मई 2006

नायब सूबेदार (जीडी) सुनील शाभराव सासने (जेसी- 349303एक्स),
10 जुलाई 2006

नायब सूबेदार (जीडी) पटले गोरेलाल लिखन लाल (जेसी-
349304ए), 10 जुलाई 2006

नायब सूबेदार (जीडी) लाभ सिंह (जेसी-349329एम),
08 अगस्त 2006

नायब सूबेदार (जीडी) मोहम्मद वसीउल्लाह अनसारी
(जेसी-349338एन), 07 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) चरन सिंह (जेसी-349339डब्ल्यू),
12 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) मनजीत सिंह (जेसी-349373डब्ल्यू),
06 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) जगजीत सिंह (जेसी-349375एफ),
11 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) शाहजी दादु शिंदे (जेसी-349331के),
12 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) निंबालकर मलहारराव आनंदराव
(जेसी-349372एन), 13 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) बहादुर सिंह (जेसी-349328के),
16 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) गुलाब दीन (जेसी-349337एल),
18 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) वाघमोडे बालकृष्णा जगननाथ (जेसी-
349340एल), 23 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) शेर मोहम्मद (जेसी-349355एन),
13 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) कोलगे गणपत रामभाऊ (जेसी-
349348एक्स), 12 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) गुरदयाल सिंह (जेसी-349354एल),
12 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) पवार शंकर रघुनाथ (जेसी- 349418एल),
12 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) दर्शन सिंह (जेसी-349351एक्स),
12 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) विश्वनाथन पी वी (जेसी-349332एम),
06 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) देव करन सिंह (जेसी-349327एफ),
07 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) बलवंत सिंह (जेसी-349353एच),
17 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) संभाजी बालु भोसले (जेसी- 349336एच),
16 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) पुरन (जेसी-349356डब्ल्यू),
16 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) सागर सिंह (जेसी-349389एफ),
03 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) ललन सिंह (जेसी-349400पी),
03 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) गुरपाल सिंह (जेसी-349379एक्स),
03 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) ओम प्रकाश (जेसी-349312वाई),
23 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) गायकवाड दिलीप आत्माराम (जेसी-
349374वाई), 30 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) थियामे दत्तात्रय रायभान (जेसी- 349376के),
01 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) जनक राज (जेसी-349386एन),
05 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) मनोहर सिंह (जेसी-349383ए),
01 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) रणजीत सिंह (जेसी-349421एल),
01 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) इम्तियाज़ अली शाह (जेसी- 349377एम),
01 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) जुगल किशोर शर्मा (जेसी- 349401एक्स),
03 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) सवरन सिंह (जेसी-349402ए),
01 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) जगीर सिंह (जेसी-349399एल), 01 अक्टूबर
2006

नायब सूबेदार (जीडी) राम निवास (जेसी-349382एक्स),
01 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) देसाई नानासो दत्तु (जेसी-349362के),
02 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) बंते सिंह (जेसी-349364पी),
03 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) रणजीत सिंह (जेसी-349364पी),
06 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) निकम श्रीरंग निवृत्ती (जेसी-349334एक्स),
01 अगस्त 2006

नायब सूबेदार (जीडी) मुस्ताक हयात माउ (जेसी-349342डब्ल्यू),
09 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) मिलिंद अरुण नाईक (जेसी-349367एच),
05 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) बर्गे संभाजी मारुती (जेसी-349380एम),
01 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) कमलेश कुमार (जेसी-349446एक्स),
03 नवम्बर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) पाटील बंडु पांडुरंग (जेसी-349391वाई),
04 नवम्बर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) लकडे जगननाथ खंडु (जेसी-349346एम),
24 नवम्बर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) योगेश वटवे (जेसी-349439एफ), 25 नवम्बर
2006

नायब सूबेदार (जीडी) कुलवंत सिंह (जेसी-349403एच),
22 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) गुरनाम सिंह (जेसी-349390डब्ल्यू),
11 नवम्बर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) चरनजीत सिंह (जेसी-349408एफ),
01 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) बाबर बाबासो तुकाराम (जेसी-349410वाई),
01 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) गवस विठल कृष्णा (जेसी-349411एफ),
01 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) मुखतार सिंह (जेसी-349413एम),
01 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) बलवंत सिंह (जेसी-349424वाई),
13 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) दिवानी राम (जेसी-349393के), 01 दिसम्बर
2006

सूबेदार (क्लर्क जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) लाल सिंह (जेसी-348682एम),
09 नवम्बर 2006

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) बलजीत सिंह (जेसी-348675डब्ल्यू),
01 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) शिवजी चौधरी (जेसी-348676वाई),
01 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) विरेंद्र सिंह (जेसी-348677एफ),
01 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) कुंवर लाल (जेसी-348683पी),
01 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) जय पाल (जेसी-348684एक्स),
01 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) शमशेर सिंह (जेसी-348685ए),
01 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) बलबीर सिंह (जेसी-348686एच),
07 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) लेहना सिंह (जेसी-348695के),
01 नवम्बर 2006

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) रमेश कुमार शर्मा (जेसी-348681के),
01 नवम्बर 2006

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) राम करन कौशिक (जेसी-
348673एल), 02 नवम्बर 2006

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) गिरीष चंद्र (जेसी-348646एफ),
27 जून 2006

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) जोध सिंह (जेसी-348761एन),
04 जुलाई 2006

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) कालम सिंह (जेसी-348650के),
02 जुलाई 2006

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) परसनाथ पांडे (जेसी-348654ए),
01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) सत्यवान (जेसी-348657एन),
01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) लक्ष्मी नारायण दुबे (जेसी-
348669एच), 01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) राम बाबु (जेसी-348666पी),
01 अगस्त 2006

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) नागेंद्र बहादुर सिंह (जेसी-348665एम),
04 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) ओम प्रकाश (जेसी-348679एम),
03 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) रणजीत सिंह (जेसी-348680एफ),
03 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) जगननाथ सचदेवा (जेसी-348670एक्स), 09 अक्टूबर 2006

सूबेदार (एसकेटी) के रैंक में

नायब सूबेदार (एसकेटी) दौलत राम (जेसी-349029एल), 05 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार (एसकेटी) के रैंक में

हवलदार (एसकेटी) नरेंद्र सिंह (सं. 1579287ए अब जेसी-350388एल), 04 दिसम्बर 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जायेगी।)

हवलदार (एसकेटी) उमेश सिंह राठौड़ (सं. 1586655एम अब जेसी-350422ए), 12 दिसम्बर 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क जीडी) अशोक माने (सं. 1575526एच अब जेसी-350380वाई), 24 नवम्बर 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जायेगी।)

हवलदार (क्लर्क जीडी) राजपूत सुरवीर सिंह रघुवीर सिंह (सं. 1570782एक्स अब जेसी-350381एफ), 12 दिसम्बर 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 सितम्बर 2006 से दी जायेगी।)

हवलदार (क्लर्क जीडी) हंस कुमार (सं. 1571603वाई अब जेसी-350389एन), 18 दिसम्बर 2006

हवलदार (क्लर्क जीडी) मदन लाल (सं. 1575651डब्ल्यू अब जेसी-350390एच), 29 दिसम्बर 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2006 से दी जायेगी।)

हवलदार (क्लर्क जीडी) अमर सिंह शेखावत (सं. 1575650एन अब जेसी-350400एफ), 01 दिसम्बर 2006

हवलदार (क्लर्क जीडी) रनबीर सिंह (सं. 1575654के अब जेसी-350401के), 04 दिसम्बर 2006

हवलदार (क्लर्क जीडी) हरवंश सिंह (सं. 1575658ए अब जेसी-350402एम), 01 दिसम्बर 2006

हवलदार (क्लर्क जीडी) सुबोध कुमार (सं. 1575685के अब जेसी-350403पी), 01 दिसम्बर 2006

हवलदार (क्लर्क जीडी) रविंद्र कुमार सैनी (सं. 1575817एम अब जेसी-350404एक्स), 01 दिसम्बर 2006

हवलदार (क्लर्क जीडी) धनंजय बोरो (सं. 1575889डब्ल्यू अब जेसी-350405ए), 01 दिसम्बर 2006

हवलदार (क्लर्क जीडी) रमेश चंद्र (सं. 1575926वाई अब जेसी-350406एच), 21 दिसम्बर 2006

हवलदार (क्लर्क जीडी) नरेश कुमार (सं. 1575931के अब जेसी-350407एल), 23 दिसम्बर 2006

हवलदार (क्लर्क जीडी) राम गोपाल सिंह (सं. 1575937एल अब जेसी-350408एन), 12 दिसम्बर 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जायेगी।)

हवलदार (क्लर्क जीडी) राजेंद्र सिंह राउतेला (सं. 1575939डब्ल्यू अब जेसी-350423एच), 09 जनवरी 2007

हवलदार (क्लर्क जीडी) जय प्रकाश राय (सं. 1575951एक्स अब जेसी-350424एल), 16 जनवरी 2007

हवलदार (क्लर्क जीडी) करी धनयां (सं. 1575969एन अब जेसी-350425एन), 05 जनवरी 2007

हवलदार (क्लर्क जीडी) नाका मरकंडा राव (सं. 1575971एल अब जेसी-350426डब्ल्यू), 05 जनवरी 2007

हवलदार (क्लर्क जीडी) लंकावलासा अनंता राव (सं. 1575972एन अब जेसी-350427वाई), 11 जनवरी 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार (जीडी) माजी सवाईन (सं. 15571410पी अब जेसी-350378एफ), 02 जनवरी 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 नवम्बर 2005 से दी जाएगी)

हवलदार (जीडी) चव्हाण शिवाजी गणपत (सं. 1556851एक्स अब जेसी-350379के), 02 दिसम्बर 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाएगी)

हवलदार (जीडी) नाईक अभयकुमार मनोहर (सं. 1559019पी अब जेसी-350382के), 13 दिसम्बर 2006

हवलदार (जीडी) राम नारायण प्रजापती (सं. 1568826एल अब जेसी-350383एम), 27 नवम्बर 2006

हवलदार (जीडी) बर्गे संजय रामचंद्र (सं. 1568944वाई अब जेसी-350384पी), 28 नवम्बर 2006

हवलदार (जीडी) सुखचैन सिंह (सं. 1559086ए अब जेसी-350385एक्स), 27 नवम्बर 2006

हवलदार (जीडी) काले आनंदराव रघुनाथ (सं. 1559365एल अब जेसी-350386ए), 02 दिसम्बर 2006

हवलदार (जीडी) गुरमेज सिंह (सं. 1569751एल अब जेसी-350387एच), 27 नवम्बर 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जाएगी)

हवलदार (जीडी) जगदीश चंद्र (सं. 1559960पी अब जेसी-350391एल), 13 दिसम्बर 2006

हवलदार (जीडी) पवार बबन भाऊ साहेब (सं. 1567709एन अब जेसी-350392एन), 11 दिसम्बर 2006

हवलदार (जीडी) सिंगारा सिंह (सं. 1567854एल अब जेसी-350393डब्ल्यू), 27 नवम्बर 2006

हवलदार (जीडी) राम भाऊ (सं. 1568116एन अब जेसी-350394वाई), 12 दिसम्बर 2006

हवलदार (जीडी) सेवक सिंह (सं. 1568155एम अब जेसी-350395एफ), 25 दिसम्बर 2006

हवलदार (जीडी) बिरादर लक्ष्मण मोहन राव (सं. 1568173पी अब जेसी-350396के), 25 नवम्बर 2006

हवलदार (जीडी) लखबीर सिंह (सं. 1568374एन अब जेसी-350397एम), 25 नवम्बर 2006

हवलदार (जीडी) जोग राज (सं. 1568406एल अब जेसी-350398पी), 22 नवम्बर 2006

हवलदार (जीडी) सुरजीत सिंह (सं. 1568596एच अब जेसी-350399एक्स), 27 नवम्बर 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2006 से दी जाएगी)

हवलदार (जीडी) फेरू सिंह (सं. 1559318एन अब जेसी-350409डब्ल्यू), 11 जनवरी 2007

हवलदार (जीडी) अर्जुन सिंह (सं. 1569251एन अब जेसी-350410एल), 01 दिसम्बर 2006

हवलदार (जीडी) मोहम्मद हसनेन खान (सं. 1569593एफ अब जेसी-350411एन), 01 दिसम्बर 2006

हवलदार (जीडी) महाराज सिंह (सं. 1569687वाई अब जेसी-350412डब्ल्यू), 12 दिसम्बर 2006

हवलदार (जीडी) चनन सिंह (सं. 1569808पी अब जेसी-350413वाई), 08 जनवरी 2007

हवलदार (जीडी) रणजीत सिंह (सं. 1570145एफ अब जेसी-350414एफ), 22 जनवरी 2007

हवलदार (जीडी) रेशम सिंह (सं. 1570151पी अब जेसी-350415के), 01 दिसम्बर 2006

हवलदार (जीडी) गंभीर सिंह (सं. 1570585पी अब जेसी-350416एम), 21 दिसम्बर 2006

हवलदार (जीडी) कड बालु नामदेव (सं. 1570737एल अब जेसी-350417पी), 01 दिसम्बर 2006

हवलदार (जीडी) ओम प्रकाश (सं. 1571186एक्स अब जेसी-350418एक्स), 09 जनवरी 2007

हवलदार (जीडी) घाडगे प्रलहाद शिवाजी (सं. 1571214वाई अब जेसी-350419ए), 23 दिसम्बर 2006

हवलदार (जीडी) विजय सिंह (सं. 1571234एम अब जेसी-350420पी), 01 दिसम्बर 2006

हवलदार (जीडी) अरिवंद सिंह (सं. 1571282एम अब जेसी-350421एक्स), 01 दिसम्बर 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाएगी)

हवलदार (जीडी) शिव नारायण श्रीवास (सं. 1559812के अब जेसी-350428एफ), 06 जनवरी 2007

हवलदार (जीडी) मोहम्मद शरीफ (सं. 1571583डब्ल्यू अब जेसी-350429के), 01 जनवरी 2007

हवलदार (जीडी) नरेंद्र कुमार (सं. 1571700डब्ल्यू अब जेसी-350430वाई), 09 जनवरी 2007

हवलदार (जीडी) श्री कृष्ण (सं. 1571863के अब जेसी-350431एफ), 08 जनवरी 2007

हवलदार (जीडी) जगजीत सिंह (सं. 1572085डब्ल्यू अब जेसी-350432के), 02 जनवरी 2007

हवलदार (जीडी) अशोक कुमार झा (सं. 1572268एम अब जेसी-350433एम), 02 जनवरी 2007

हवलदार (जीडी) यशपाल शर्मा (सं. 1573255एफ अब जेसी-350434पी), 06 जनवरी 2007

हवलदार (जीडी) निजामुद्दीन (सं. 1558628एम अब जेसी-350435एक्स), 10 जनवरी 2007

हवलदार (जीडी) अमरिक सिंह (सं. 1558836एफ अब जेसी-350436ए), 06 जनवरी 2007

हवलदार (जीडी) सुखा लाल (सं. 1559201पी अब जेसी-350437एच), 10 जनवरी 2007

हवलदार (जीडी) अंग्रेज सिंह यादव (सं. 1569068एल अब जेसी-350438एल), 08 जनवरी 2007

हवलदार (जीडी) सुरजीत सिंह (सं. 1558477वाई अब जेसी-350439एन), 01 जनवरी 2007

हवलदार (जीडी) निर्मल सिंह (सं. 1559565एफ अब जेसी-350440एच), 08 जनवरी 2007

हवलदार (जीडी) शिंदे शिवाजी सुचदेव (सं. 1558163एक्स अब जेसी-350441एल), 02 जनवरी 2007

हवलदार (जीडी) दलजीत सिंह (सं. 1567824एल अब जेसी-350442एन), 02 जनवरी 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जाएगी)

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार रणबीर सिंह (सं. 1469485एच अब जेसी-329969पी), 12 दिसम्बर 2006*

हवलदार नागेन्द्रा सिंह (सं. 1484295एन अब जेसी-329970के), 19 दिसम्बर 2006*

हवलदार सूर्य कुमार चौधरी (सं. 1466965एफ अब जेसी-329971एम), 14 दिसम्बर 2006*

हवलदार निर्मल बारा (सं. 1469259एल अब जेसी-329972पी), 18 दिसम्बर 2006*

हवलदार गजेन्द्र सिंह पंवार (सं. 1467716पी अब जेसी-329973एक्स), 16 दिसम्बर 2006*

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 1471327एम अब जेसी-329974ए), 21 दिसम्बर 2006*

हवलदार विजय विक्टर मिन्ज (सं. 1471757डब्ल्यू अब जेसी-329975एच), 18 दिसम्बर 2006*

हवलदार प्रेम चंद धोत (सं. 1485873के अब जेसी-329976एल), 01 जनवरी 2007*

हवलदार बिशन सिंह (सं. 1473133एच अब जेसी-329977एन), 02 जनवरी 2007*

हवलदार दीपक चन्द्र साह (सं. 1473770वाई अब जेसी-329978डब्ल्यू), 02 जनवरी 2007*

हवलदार अवे कुमार सिंह (सं. 1473782ए अब जेसी-329979वाई), 03 जनवरी 2007*

हवलदार जगदीश राज (सं. 1468901पी अब जेसी-329980एन), 04 नवम्बर 2006**

हवलदार उपेन्द्र कुमार सवेन (सं. 1469267के अब जेसी-329981डब्ल्यू), 10 नवम्बर 2006**

हवलदार जोगिन्द्र सिंह (सं. 1469569डब्ल्यू अब जेसी-329982वाई), 01 जनवरी 2007\$

हवलदार सुखदेव सिंह (सं. 1469732एल अब जेसी-329983एफ), 02 जनवरी 2007\$

हवलदार जगत सिंह (सं. 1469814एन अब जेसी-329984के), 02 जनवरी 2007\$

हवलदार केदार मण्डल (सं. 1469891एच अब जेसी-329985एम), 01 जनवरी 2007\$

हवलदार बृन्द बिहारी सिंह (सं. 1470000एफ अब जेसी-329986पी), 01 जनवरी 2007\$

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार नफे सिंह डागर (सं. 1473385पी अब जेसी-329987एक्स), 01 नवम्बर 2006**

#(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 फरवरी 2005)

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 अक्टूबर 2006)

**(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2006)

\$(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007)

रोजी शर्मा
उप सचिव

सं. 248, दिनांक 24 अप्रैल 2007--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

ग्रुप कैप्टन (समकक्ष) से एयर कमीडोर (समकक्ष) पद पर

नवीन रतन (एफ-14242), (एमआर-03665एफ), 01 अक्टूबर 2006 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 सितम्बर 2006 से दी जाती है।

मेजर के पद पर

प्रथु रस्तोगी (एमएस-13917डब्ल्यू), (एमआर-07993एम), एएमसी, 24 नवम्बर 2003

नीन्थूजम श्रविकान्त (एमआर-08119वाई), एएमसी, 21 जनवरी 2006

शैलेन्द्र सिंह (एमआर-08227एच), एएमसी, 11 फरवरी 2006

कांबले विकास केशव (एम एस-13371एल), (एम आर-08423एन), एएमसी, 01 फरवरी 2003

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 24 अप्रैल 2004 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

दीपाली त्रिपाठी (एम एस-13850एच), (एम आर-08420पी),
एएमसी, 01 नवम्बर 2003

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 25 दिसम्बर 2004 में प्रकाशित
रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से
है रदद किया जाता है।)

मोहम्मद रेहान (एम एस-14101वाई), (एम आर-08282वाई),
एएमसी, 02 फरवरी 2005

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 10 दिसम्बर 2005 में प्रकाशित
रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से
है रदद किया जाता है।)

अनिता राणा (एम एस-13910एम), (एम आर-08419ए), एएमसी,
30 मई 2008

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 24 अप्रैल 2004 में प्रकाशित
रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से
है रदद किया जाता है।)

वंदना राणा (एम एस-13951डब्ल्यू), (एम आर-08418एक्स),
एएमसी, 01 जून 2002

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 25 दिसम्बर 2004 में प्रकाशित
रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से
है रदद किया जाता है।)

कप्तान वर्मा तरून नंद किशोर (एम एस-13982डब्ल्यू), (एम
आर-08417पी), एएमसी, 12 अक्टूबर 2003

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 30 अप्रैल 2005 में प्रकाशित
रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से
है रदद किया जाता है।)

अनिल कुमार चन्द्रा (एम एस-13681एम), (एम आर-08206एम),
एएमसी, 05 अक्टूबर 2001

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 29 जून 2002 में प्रकाशित रक्षा
मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से है
रदद किया जाता है।)

नवीन अग्रवाल (एम एस-14098के), (एम आर-08430वाई),
एएमसी, 25 जनवरी 2005

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 03 सितम्बर 2005 में प्रकाशित
रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से
है रदद किया जाता है।)

अबिर गोगोई (एम एस-14132वाई), (एम आर-08213एच),
एएमसी, 29 जुलाई 2004

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 30 अप्रैल 2005 में प्रकाशित
रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से
है रदद किया जाता है।)

पुस्करना अमित रवि कुमार (एम एस-14097एफ), (एम आर-
08262एल), एएमसी, 23 जनवरी 2005

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 03 सितम्बर 2005 में प्रकाशित
रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से
है रदद किया जाता है।)

कप्तान के पद पर

बिधान चन्द्र (एम आर-08125एम), एएमसी, 30 अगस्त 2005

विवेक गुप्ता (एम आर-08148एन), एएमसी, 27 दिसम्बर 2005

विनय पाल सिंह (एम आर-08153वाई), एएमसी, 27 दिसम्बर
2005

विक्रम सिंह (एम आर-08165एन), एएमसी, 27 दिसम्बर 2005

चंदन कुमार ठाकुर (एम आर-08173एम), एएमसी, 27 दिसम्बर
2005

मनोज कुमार गुप्ता (एम आर-08193ए), एएमसी, 27 दिसम्बर
2005

स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमाण्डर के पद पर

गोपाल कृष्ण मिश्र (एम आर-06812के), (ए एफ-23418),
एएमसी, 16 दिसम्बर 2004

बिजू एम जोन (एम आर-06732एम), (ए एफ-23159), एएमसी,
04 जनवरी 2007

ए दत्ता (एम आर-06766ए), (ए एफ-23456), एएमसी,
04 जनवरी 2007

एस के पटनायक (एम आर-06734एक्स), (ए एफ-23410),
एएमसी, 04 जनवरी 2007

स्क्वाड्रन लीडर के पद पर

अनिल कुमार (एम एस-14256एन), (एम आर-08281डब्ल्यू),
(26069), एएमसी, 22 जुलाई 2004

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 10 दिसम्बर 2005 में प्रकाशित
रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से
है रदद किया जाता है।)

सर्जन ले. कमाण्डर के पद पर

महेश सिंह हाडा (एम एस-14377पी), (एम आर-08248वाई),
(75785), एएमसी, 21 जनवरी 2006

राजुरकर मकरन्द त्रिमबकराव (एम एस-14323एन), (एम
आर-08250डब्ल्यू), (75793), एएमसी, 21 जनवरी 2006

राजेश कामरान

ब्रिगेडियर

डी.जी.ए.एफ.एम.एस. (कार्मिक)

सेना सचिव शाखा

सं. 249, दिनांक 25 अप्रैल 2007—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

ब्रिगेडियर के मूल रैंक में

रैंक, नाम, आईसी, आर्म एवं ब्रिगेडियर के मूल रैंक की प्रभावी तिथि

कर्नल मिश्रा अतुल (आईसी-31909), ईएमई, 01 जून 2006

कर्नल सुनील कुमार शर्मा (आईसी-33722), ईएमई, 01 सितम्बर 2006 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जून 2006 से दी जाएगी।

कर्नल ए के एस चंदेल (आईसी-31079), एओसी, 01 जून 2006

कर्नल आर जी घरपड़े (आईसी-34724), सिग्नल्स, 01 जून 2006

कर्नल संदीप कुमार (आईसी-31559), आईसी, 01 जून 2006

कर्नल एन के दत्ता (आईसी-30802), ईएमई, 01 जुलाई 2006 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जून 2006 से दी जाएगी।

कर्नल श्रीवास्तव अजीत (आईसी-30632), इंजीनियर्स, 01 जून 2006

कर्नल गुलेरिया के एस एस (आईसी-36524), आर्म्ड, 01 जून 2006

कर्नल चट्टा आर सी (आईसी-36527), एसी, 01 जून 2006

कर्नल डबास राजिन्दर सिंह (आईसी-36528), ईएमई, 01 जुलाई 2006 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जून 2006 से दी जाएगी।

कर्नल एस के सांगवान (आईसी-36543), मैक इन्फैन्ट्री, 01 जून 2006

कर्नल नाटू वी ए (आईसी-36551), 9 जीआर, 01 जून 2006

कर्नल वाई हुसैन (आईसी-36579), आर्टी, 01 जून 2006

कर्नल साहनी अरुण कुमार (आईसी-31633), आर्टी, 01 जून 2006

कर्नल पनवर रविन्दर सिंह (आईसी-31634), सिग्नल्स, 01 जून 2006

कर्नल सांगरा यशवन्त (आईसी-31635), आर्टी, 01 जून 2006

कर्नल ओम प्रकाश (आईसी-31638), कुमाऊँ, 01 जून 2006

कर्नल राणा रमेश कुमार (आईसी-31640), राज राई., 01 जून 2006

कर्नल पाधी एन पी (आईसी-31642), इंजी., 01 जून 2006

कर्नल कुमार वेणुगोपाल जय (आईसी-31644), सिग्नल्स, 01 जुलाई 2006 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जून 2006 से दी जाएगी।

कर्नल मेनन अर्जुन (आईसी-31650), आर्म्ड, 01 जून 2006

कर्नल भल्ला अनिल कुमार (आईसी-31653), आर्म्ड, 01 जून 2006

कर्नल भट्टाचार्या जी (आईसी-31657), आर्टी (जीसी), 01 जून 2006

कर्नल राजा वेलु यू एम (आईसी-31658), राज रिफ., 01 जून 2006

कर्नल सेन ए के (आईसी-31660), 11 जीआर, 01 जून 2006

कर्नल नंदन राकेश (आईसी-31663), एएडी, 01 जून 2006

कर्नल शर्मा वी आर (आईसी-31667), एएडी, 01 जून 2006

कर्नल वरिन्दर सिंह, वीआरसी, एसएम (आईसी-31669), जैक लाईट, 01 जून 2006

कर्नल सांगवान बी एस (आईसी-31667), मद्रास, 01 जून 2006

कर्नल पटियाल एम एस (आईसी-31680), पंजाब, 01 जून 2006

कर्नल पिल्लई एम एस, एसएम (आईसी-31684), इंजी. (जीसी), 01 जून 2006

कर्नल शर्मा रूप ज्योति (आईसी-31694), जाट, 01 जून 2006

कर्नल रंजन अभय (आईसी-31695), सिक्ख, 01 जून 2006

कर्नल तुली अशोक कुमार (आईसी-31698), एएडी, 01 जून 2006

कर्नल भूपिन्दर सिंह (आईसी-31704), कुमाऊँ, 01 जून 2006

कर्नल संदीप सिंह (आईसी-31705), मैक रिफ., 01 जून 2006

कर्नल रविन्द्रनाथ पी एस (आईसी-31712), 1 जीआर, 01 जून 2006

कर्नल मिश्रा अरुण कुमार, एसएम (आईसी-31715), आर्टी (जीसी), 01 जून 2006

कर्नल कालिया वी एम (आईसी-31719), आर्टी (जीसी), 01 जून 2006

कर्नल वशिष्ठ दीपक (आईसी-31720), सिक्ख, 01 जून 2006

कर्नल कौशिक पी के (आईसी-31724), पारा, 01 जून 2006

कर्नल चौधरी के के आर, वीएसएम** (आईसी-31729), महार, 01 जून 2006

कर्नल भल्ला राजीव (आईसी-31736), जाट, 01 जून 2006

कर्नल कृष्णन सी ए (आईसी-31739), 4 जीआर, 01 जून 2006

कर्नल भारद्वाज प्रमोद (आईसी-31754), सिक्ख, 01 जून 2006

कर्नल बालकृष्ण ए वी (आईसी-31758), एओसी, 01 जुलाई 2006 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जून 2006 से दी जाएगी।

कर्नल मनोहर सिंह (आईसी-31762), डोगरा, 01 जून 2006

कर्नल पन्नु बी एस (आईसी-31764), बिहार, 01 जून 2006

कर्नल गनपथी सी पी, एसएम (आईसी-31765), मैक इन्फैं., 01 जून 2006

कर्नल चन्दे एच एम (आईसी-31791), आर्टी, 01 जून 2006

कर्नल मेहता रवि दत्त (आईसी-31794), इन्ट, 01 जून 2006

कर्नल विवेकानन्दन पी (आईसी-31795), एएडी, 01 जून 2006

कर्नल कुम्बर के एस (आईसी-31797), मद्रास, 01 जून 2006

कर्नल सरकार एस के (आईसी-31817), मद्रास, 01 जून 2006

कर्नल मेहता अजय कुमार (आईसी-31852), मैक इन्फैं., 01 जून 2006

कर्नल सेन प्रबल चन्द्रा, वीएसएम (आईसी-31864), ईएमई, 01 जुलाई 2006 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जून 2006 से दी जाएगी।

कर्नल सरबजीत सिंह (आईसी-31896), आर्म्ड, 01 जून 2006

कर्नल टिकू पी के (आईसी-31911), एमएफ, 01 जून 2006

कर्नल टिकु कुलदीप कुमार (आईसी-35387), इंजी., 01 जून 2006

कर्नल दत्ता वी के (आईसी-35390), इंजी. (जीसी), 01 जून 2006

कर्नल आहुजा इन्द्र पाल सिंह (आईसी-35419), इंजी., 01 जून 2006

कर्नल लाल अजय कुमार (आईसी-35454), ईएमई, 01 जुलाई 2006 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जून 2006 से दी जाएगी।

कर्नल देवस्थाले जे के (आईसी-36504), जैग, 01 जून 2006

कर्नल माटू आर के (आईसी-37297), इंजी., 01 जून 2006

कर्नल वशिष्ठ संजीव, एसएम (आईसी-37405), इंजी., 01 जून 2006

कर्नल अनिल शर्मा (आईसी-36659), आर्टी, 01 जून 2006

कर्नल मिश्रा रंजीत (आईसी-36679), मराठा लाइट, 01 जून 2006

कर्नल रॉय पी के (आईसी-36680), सिक्ख, 01 जुलाई 2006

कर्नल दहिया रुमेल (आईसी-34001), कुमाऊँ, 01 जुलाई 2006

कर्नल राय मनमोहन सिंह (आईसी-34003), इंजी. (जीसी), 01 जुलाई 2006

कर्नल थिण्ड के जे एस (आईसी-34005), आर्म्ड, 01 जुलाई 2006

कर्नल बावा आर के (आईसी-34006), मैक. इंजी., 01 जुलाई 2006

कर्नल गुजराल एम एस (आईसी-34007), इंजी., 01 जुलाई 2006

कर्नल जौहर हरमिन्दर सिंह (आईसी-34011), सिगनल्स, 01 अगस्त 2006 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जुलाई 2006 से दी जाएगी।

कर्नल एड्डीयेन एक्स पी (आईसी-34012), 87 एआर, 01 जुलाई 2006

कर्नल अमित शर्मा (आईसी-34014), 45 कैव, 01 जुलाई 2006

कर्नल मानिक सब्बरवाल, एसएम (आईसी-34015), इंजी., 01 जुलाई 2006

कर्नल सिंह कमलजीत (आईसी-34016), आर्टी, 01 जुलाई 2006

कर्नल बावा जसबीर सिंह, वीएसएम (आईसी-34018), असम, 01 जुलाई 2006

कर्नल हूडा डी एस, वीएसएम** (आईसी-34019), 4 जीआर, 01 जुलाई 2006

कर्नल बहल प्रमोद (आईसी-34021), ग्रिनेडियर्स, 15 जुलाई 2006

कर्नल चक्रवर्ती अनिरुद्ध (आईसी-34028), राजपूत, 01 अगस्त 2006

कर्नल जामवाल आर एस (आईसी-34029), जैक राई., 01 अगस्त 2006

कर्नल अजाद समीर (आईसी-34035), आर्टी (जीसी), 01 अगस्त 2006

कर्नल कुमार पी आर (आईसी-34036), आर्टी (जीसी), 01 अगस्त 2006

कर्नल देविन्दर सिंह, एसएम (आईसी-34046), आर्टी, 01 अगस्त 2006

कर्नल सत्यनारायण जी वी (आईसी-34048), 5 जीआर, 01 अगस्त 2006

कर्नल महिसालकर एच एन (आईसी-34057), सिक्ख, 01 अगस्त 2006

कर्नल मोहन अमूल्या, वीएसएम (आईसी-34066), राजपूत, 01 अगस्त 2006

कर्नल कुलदीप सिंह (आईसी-34084), आर्म्ड, 18 अगस्त 2006

कर्नल शर्मा बाल कृष्ण, एसएम (आईसी-34086), सिक्ख लाइट, 29 अगस्त 2006

कर्नल राज पी एम के (आईसी-34087), एससी, 01 सितम्बर 2006

कर्नल सिंह कंवलजीत (आईसी-34097), मैक इन्फैं., 01 सितम्बर 2006

कर्मल सचदेव एच जे एस (आईसी-34098), 01 सितम्बर 2006

कर्मल नरायणन वी के (आईसी-34102), मैक इन्फै., 01 सितम्बर 2006

कर्मल त्रिपाठी ए के आर (आईसी-34121), जाट, 01 सितम्बर 2006

कर्मल राय आर पी (आईसी-34148), एएससी, 01 सितम्बर 2006

कर्मल नायर ससिधरम (आईसी-34152), राज राई., 01 सितम्बर 2006

कर्मल सिंह के डी (आईसी-34164), मद्रास, 01 सितम्बर 2006

कर्मल विरेन्द्र कुमार (आईसी-34182), मद्रास, 01 सितम्बर 2006

कर्मल ठाकुर कुशल, वाईएसएम (आईसी-34190), ग्रेनेडियर्स, 01 सितम्बर 2006

कर्मल बहुगुना आर (आईसी-34194), 1 जीआर, 01 सितम्बर 2006

कर्मल सिन्हा तारा कान्त (आईसी-34212), कुमाऊँ, 01 सितम्बर 2006

कर्मल वर्मा राजीव (आईसी-34216), आर्टी, 01 सितम्बर 2006

कर्मल ग्रोवर के एस (आईसी-34220), आर्टी, 01 सितम्बर 2006

कर्मल रोनिकल एस के (आईसी-34226), एएससी, 01 सितम्बर 2006

कर्मल वेणुगोपाल के एस (आईसी-34229), जाट, 01 सितम्बर 2006

कर्मल बलबीर सिंह (आईसी-35825), इंजी., 23 सितम्बर 2006

कर्मल सिंह बी जी (आईसी-35878), इंजी, 26 सितम्बर 2006।

एन. के. फूकन
एएमएस/एमएस (एक्स)

वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय

सं. 250, दिनांक 25 अप्रैल 2007--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :--

1. वायु शस्त्र निरीक्षण स्कंध (ए ए आई डब्ल्यू) चांदा के प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी श्री एम एस दाते 4 जनवरी 2007 (पूर्वाह्न) से मस्का हैदराबाद में तदर्थ निदेशक के रूप में।
2. मु.आ.नि. कार्यालय कानपुर के प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी श्री डी के कपिल 15 दिसम्बर 2006 (पूर्वाह्न) से उसी कार्यालय में तदर्थ निदेशक के रूप में।

3. मु.आ.नि. कार्यालय कोरापुट के प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी श्री ए के शर्मा 15 दिसम्बर 2006 (पूर्वाह्न) से उसी कार्यालय में तदर्थ निदेशक के रूप में।
4. मु.आ.नि. (एए) खड़की पूणे के प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी श्री एम के वी नायर 15 दिसम्बर 2006 (पूर्वाह्न) से उसी कार्यालय में तदर्थ निदेशक के रूप में।
5. वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय, नई दिल्ली के प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी श्री के एल खट्टर 15 दिसम्बर 2006 (पूर्वाह्न) से वै गु आ मनि मुख्यालय नई दिल्ली में तदर्थ निदेशक के रूप में।
6. मु.आ.नि. कार्यालय लखनऊ के प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी श्री टी छाबड़ा 15 दिसम्बर 2006 (पूर्वाह्न) से उसी कार्यालय में तदर्थ निदेशक के रूप में।
7. वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय, नई दिल्ली के प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी श्रीमती सुषमा माकिन 15 दिसम्बर 2006 (पूर्वाह्न) से वै गु आ मनि मुख्यालय नई दिल्ली में तदर्थ निदेशक के रूप में।
8. मु.आ.नि. कार्यालय बंगलौर के प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी श्री बी वी एन मूरथी 15 दिसम्बर 2006 (पूर्वाह्न) से उसी कार्यालय में तदर्थ निदेशक के रूप में।
9. मु.आ.नि. कार्यालय बंगलौर के प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी श्री वी एन शंकर 26 दिसम्बर 2006 (पूर्वाह्न) से उसी कार्यालय में तदर्थ निदेशक के रूप में।
10. मु.आ.नि. कार्यालय बंगलौर के प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी श्री वी ओ जानार्दन 15 दिसम्बर 2006 (पूर्वाह्न) से उसी कार्यालय में तदर्थ निदेशक के रूप में।
11. वायु शस्त्र निरीक्षण स्कंध (ए ए आई डब्ल्यू) खमरिया के प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी श्री जी एस आहलुवालिया 16 जनवरी 2007 (पूर्वाह्न) से मु.आ.नि. कार्यालय कोरापुट में तदर्थ निदेशक के रूप में।

वी. सेतुमाधवन
अवर सचिव

वायु शाखा

सं. 251, दिनांक 23 अप्रैल 2007--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

वैमानिक इंजिनियरिंग शाखा

ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में

एस के मित्तल (17114) वै.ई.(वै.), 14 फरवरी 2007/01 जनवरी 2007 (नौ.से.)

[इनका नाम ग्रुप कैप्टन एस सिंह (16941) वै.ई.(वै.) के नीचे आयेगा।]

टी सरकार (15643) वै.ई.(यां.), 05 मार्च 2006/09 जून 2005 (नौ.से.)

[इनका नाम ग्रुप कैप्टन एम आर थेल्ला (15459) वै.ई.(वै.) और के के धिमान (15292) वै.ई.(वै.) के बीच में आयेगा।]

वी के गोयल (16540) वै.ई.(यां.), 26 सितम्बर 2006/04 अक्टूबर 2005 (नौ.से.)

[इनका नाम ग्रुप कैप्टन एस के देशपांडे (16528) वै.ई.(वै.) के नीचे आयेगा।]

एस के नेहरा (16740) वै.ई.(वै.), 11 सितम्बर 2006/01 अगस्त 2006 (नौ.से.)

[इनका नाम ग्रुप कैप्टन एम एम डांग्रे (16750) वै.ई.(वै.) के नीचे आयेगा।]

एन जी पथमाथन (16945) वै.ई.(वै.), 01 सितम्बर 2006

ए के गुप्ता (16942) वै.ई.(यां.), 01 नवम्बर 2006

एस सिंह (16941) वै.ई.(वै.), 01 दिसम्बर 2006

ए कुमार (14963), संभा, 20 फरवरी 2006

के के चन्दा (15753), संभा, 19 सितम्बर 2006

जे वी सिंह (15758), संभा, 01 अक्टूबर 2006

शिक्षा शाखा

ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में

बी सी एस भारथी (16673), शिक्षा, 15 मई 2006

[इनका नाम ग्रुप कैप्टन पी मल्लिक (16669) शिक्षा के नीचे आयेगा।]

ए कुमार (16675), शिक्षा, 01 नवम्बर 2006।

के. वी शंकर

संयुक्त निदेशक कार्मिक (अधिकारी)-2 बी

सेना शाखा

सं. 252, दिनांक 24 अप्रैल 2007—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों की दिनांक 18.08.2003 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथासंशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

प्रधु रस्तोगी (एमएस-13917डब्ल्यू)(एमआर-07993एम), एएमसी, 24 नवम्बर 1999

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12 जनवरी 2002 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों की दिनांक 22.03.2005 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथासंशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

आबिर गोगोई (एमएस-14132वाई)(एमआर-08213एच), एएमसी, 29 जनवरी 2001 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 29.07.2000 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 06 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 15 मार्च 2003 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

अनिल कुमार चन्दा (एमएस-13681एम), (एमआर-08206एम), एएमसी, 05 अक्टूबर 1999 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 05 अक्टूबर 1997 से दी जाएगी। इसमें स्नातकोत्तर योग्यता एमडी (मेडिसिन) के लिए 24 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 09 मार्च 2002 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों की दिनांक 18 जुलाई 2005 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथासंशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

मोहम्मद रेहान (एमएस-14101वाई), (एमआर-08282वाई), एएमसी, 02 फरवरी 2001 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 10 दिसम्बर 2002 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

पुस्करना अमित रवि कुमार (एमएस-14097एफ), (एमआर-08262एल), एएमसी, 23 जनवरी 2005 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12 अक्टूबर 2002 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

फ्लाईट लेफ्टिनेंट के पद पर

अनिल कुमार (एमएस-14256एन), (एमआर-08281डब्ल्यू), (26069), एएमसी, 22 जनवरी 2001 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता

22.7.2000 से दी जाएगी। (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 06 महीने की पूर्वविरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी)। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 04 अक्टूबर 2003 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)।

सर्जन लेफ्टिनेंट के पद पर

महेश सिंह हाडा (एमएस-14377पी), (एमआर-08248वाई), (75785), एएमसी, 21 जनवरी 2002 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 30 अप्रैल 2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)।

राजुरकर मकरन्द त्रिम्बाकराव (एमएस-14323एन), (एमआर-08250डब्ल्यू), (75793), एएमसी, 21 जनवरी 2002 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 25 जनवरी 2003 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)।

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों की दिनांक 10 जनवरी 2006 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

(कु.) सारिका गर्ग (एमएस-14586एम), (एमआर-08304एम), एएमसी, 17 मार्च 2003 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 30 अप्रैल 2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)।

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों की दिनांक 15 जून 2006 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

विकास माथुर (एमएस-14429ए), (एमआर-08408एन), एएमसी, 30 जनवरी 2002 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 04 अक्टूबर 2003 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)।

बलविंदर सिंह (एमएस-14351ए), (एमआर-08406एच), एएमसी, 19 फरवरी 2002 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 04 अक्टूबर 2003 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)।

विक्रम भारद्वाज (एमएस-14436डब्ल्यू), (एमआर-08409डब्ल्यू), एएमसी, 15 मार्च 2002 (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12 अप्रैल

2003 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)।

कप्तान जितेन्द्र कुमार शर्मा (एम एस-14317ए), (एम आर-08412डब्ल्यू), एएमसी, 21 जनवरी 2002

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 05 जून 2004 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

कप्तान नैखरील्यू लिन्यू (एम एस-14333एक्स), (एम आर-08413वाई), एएमसी, 21 जनवरी 2002

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 13 दिसम्बर 2003 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

कप्तान खेमकर पूरबी निलेश (एम एस-14343एफ), (एमआर-08415के), एएमसी, 21 जनवरी 2002

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 04 अक्टूबर 2003 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

कप्तान वर्मा तरून नंद किशोर (एम एस-13982डब्ल्यू), (एमआर-08417पी), एएमसी, 12 अक्टूबर 1999

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 01 दिसम्बर 2001 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

कप्तान बंदना राणा (एम एस-13951डब्ल्यू), (एम आर-08418एक्स), एएमसी, 01 जून 2000 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 01 जून 1998 से दी जाएगी। इसमें स्नातकोत्तर योग्यता एम. डी. (पैथोलोजी) के लिए दी गई 24 महीने की पूर्वविरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12 अक्टूबर 2002 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

कप्तान अनिता राणा (एम एस-13910एम), (एम आर-08419ए), एएमसी, 30 नवम्बर 1999 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 30 मई 1999 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति योग्यता के लिए दी गई 06 महीने की पूर्वविरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12 अक्टूबर 2002 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

कप्तान विक्रान्त वी गडकारी (एम एस-14524एम), (एमआर-08425एन), एएमसी, 17 फरवरी 2003 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 17 अगस्त 2002 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति योग्यता

के लिए दी गई 06 महीने की पूर्वविरिष्टता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 जून 2006 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

कप्तान अरूण प्रसाद बी (एम एस-14700वाई), (एमआर-08400एफ), एएमसी, 10 दिसम्बर 2003

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 03 सितम्बर 2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

कप्तान नवीन अग्रवाल (एम एस-14098के), (एमआर-08430वाई), एएमसी, 25 जनवरी 2001

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12 अक्टूबर 2002 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

कप्तान अविनाश सुराना (एम एस-14652के), (एम आर-08386ए), एएमसी, 28 मई 2003

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 30 अप्रैल 2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

कप्तान आर प्रविन (एम एस-14699पी), (एम आर-08391एल), एएमसी, 09 दिसम्बर 2003

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 03 सितम्बर 2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

कप्तान दीपाली त्रिपाठी (एम एस-13850एच), (एम आर-08420पी), एएमसी, 01 नवम्बर 1999

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12 जनवरी 2002 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

कप्तान कांबले विकास केशव (एम एस-13371एल), (एम आर-08423एन), एएमसी, 01 फरवरी 1999

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 23 दिसम्बर 2000 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

ले. चन्द्रशेखर सिंह चिलवाल (एम एस-14102एफ), (एम आर-08429के), एएमसी, 05 फरवरी 2001 (दिनांक 04.04.2001 की इन्टर्नशिप प्रशिक्षण के बाद दिनांक 05.04.2001 से कप्तान का पद दिया गया)

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12 अप्रैल 2003 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

राजेश कामरान
ब्रिगे.

डिप्टी-डी.जी.ए.एफ.एम.एस. (पर्स)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 26th May 2007

COAST GUARD HEADQUARTERS

No. 243, dated 25th April 2007.—The President is pleased to appoint the following as Assistant Commandant (GD/Tech) in Coast Guard with effect from the date indicated against each:—

General Duty

Name	Appointment	Date of Joining	Personal No.
1	2	3	4
(S/Shri)			
M Kumar	Appointed as Assistant Comdt (GD/PN) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on probation of two years	26 Jun 2006	0663-E
JD Dhayalan	—do—	—do—	0664-J
A Yadav	—do—	—do—	0665-L
MK Soni	—do—	—do—	0666-M
AK Yadav	—do—	—do—	0667-P
NR Singh	—do—	—do—	0668-Q
KS Adhikari	—do—	—do—	0669-S
B Datt	—do—	—do—	0670-J
AS Ali	—do—	—do—	0671-X
AK Pandey	—do—	—do—	0672-C
Vikas Tripathi	—do—	—do—	0673-D
TN Kotambe	—do—	—do—	0674-E
Kaustubh Mulye	—do—	—do—	0675-J
B Ilavarsan	—do—	—do—	0676-L
MK Dhiman	—do—	—do—	0677-M
TU Meetei	—do—	—do—	0678-P
SJ Roy	—do—	—do—	0679-Q
BD Singh	—do—	—do—	0680-S
M Singh	—do—	—do—	0681-V
KV Sumbria	—do—	—do—	0682-X
PK Sharma	—do—	—do—	0683-C
E Piplani	—do—	—do—	0684-D
P Varghese	—do—	28 Aug 2006	0685-E

1	2	3	4
(S/Shri)			
Rithin Thamban KV	Appointed as Assistant Comdt (GD/PN) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on probation of two years	26 Dec 2006	0686J
S Sedawat	—do—	—do—	0687-L
AK Srivastava	—do—	—do—	0688-M
Ramanjeet Singh Rana	—do—	—do—	0689-P
DK Sharma	—do—	—do—	0690-Q
Kunal Kumar	—do—	—do—	0691-S
Sunil Negi	—do—	—do—	0692-V
TN Ngamlien	—do—	—do—	0693-X
Hitesh Kumar	—do—	—do—	0694-C
Anuj Nerwal	—do—	—do—	0695-D
MS Bharambe	—do—	—do—	0696-E
Rajinder Kumar	—do—	—do—	0697-J
V Vinod Kumar	—do—	—do—	0698-L
A Alex Ananth	—do—	—do—	0699-M
Arun Kumar R	—do—	—do—	0700-P
Dheeraj Singh Khariyal	—do—	—do—	0701-Q
Umakant Mandal	—do—	—do—	0702-S
Harish Kumar Vijendran	—do—	—do—	0703-V
SJ Shahapurkar	—do—	—do—	0704-X
Akhil Guleria	—do—	—do—	0705-C
Rakesh Kumar Rana	—do—	—do—	0706-D
A Raturi	—do—	—do—	0707-E
Vishal Verma	—do—	—do—	0708-J
Lalit Budakoti	—do—	—do—	0709-L
AL Aakrisht	—do—	04 Jan 2007	0710-M
Technical			
Sai Chandran B	Appointed as Assistant Comdt (Tech) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on probation of two years	26 Jun 2006	4145-S
K Yoosaf Ali	—do—	28 Aug 2006	5096-E
PKM Ali	—do—	—do—	4146-V

1	2	3	4
(S/Shri)			
IJ Singh	Appointed as Assistant Comdt (Tech) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on probation of two years	28 Aug 2006	4147-X
George Boby	—do—	—do—	4148-C
M Abusali	—do—	—do—	5097-J
DD Sharma	—do—	—do—	5098-L
S Kushwaha	—do—	29 Jan 2007	5099-M
AB Haldar	—do—	—do—	5100-P

VK TIWARY
Director (Navy-II)

INTEGRATED HEADQUARTERS-MOD (NAVY)

No. 244, dated 24th April 2007.—The President is pleased to extend the appointment of Shri JS Joshi, Director of AFHQ Civil Service (Group 'A' Gazetted) in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300 under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules 2001, for a period from 04.04.2006 to 31.08.2006 or till regular incumbents become available or till such time the officer retires, whichever is earlier.

2. This appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

The President is pleased to extend the appointment of Shri JS Joshi, Director of AFHQ Civil Service (Group 'A' Gazetted) in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300 under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules 2001, for a period from 01.09.2006 to 28.02.2007 or till regular incumbents become available or till such time the officer retires, whichever is earlier.

2. This appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

The President is pleased to extend the appointment of Shri JS Joshi, Director of AFHQ Civil Service (Group 'A' Gazetted) in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300 under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules 2001, for a period from 01.03.2007 to 31.08.2007 or till regular incumbents become available or till such time the officer retires, whichever is earlier.

2. This appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

The President is pleased to extend the appointment of the following Personal Assistants of AFHQ Stenographers Service as Private Secretary (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- on temporary promotion basis beyond 01-06-06 for a period upto 31-12-2006 or till persons from the Select List become available or till the below mentioned persons retire from service, whichever is earlier:—

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| (a) Smt. Mohini Agrawal | (j) Smt. Veena Khatri |
| (b) Smt. Santosh Tanwar | (k) Smt. Padma Kumari |
| (c) Smt. Chitra Dutta | (l) Smt. MR Arora |
| (d) Shri Vinay Grover | (m) Smt. Rita Kalsi |
| (e) Shri GS Jassal | (n) Smt. Amarjeet Kaur |
| (f) Smt. CK Dhillon | (o) Km J. Vijayalakshmi |
| (g) Smt. Manju Sahni | (p) Smt. Mohini Punjabi |
| (h) Smt. Kiran Kalra | (q) Shri N. Lakshmi Narasimhan |
| (i) Smt. Nirmal | |

2. Appointment of the above mentioned officers as Private Secretary is made under AFHQ Stenographers Service Rule, 2004, on the conditions mentioned below:—

- The appointment is purely on temporary basis and can be terminated on administrative ground without issuing any prior notice to this effect.
- They will not have any claim for regular promotion/appointment on the basis of temporary promotion granted now. The periods of such appointment shall not count towards seniority in the grade of PS.

SHANKAR SINGH
Dy. Chief Admn. Officer (A)

ARMY BRANCH

No. 245, dated 20th April 2007.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

To be Naib Subedar

Hav Shiv Karan Singh (No. 14910462M now JC-420617L), 09 Dec 2006*

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Kartar Singh (No. 14905804L now JC-420618N), 22 Dec 2006*

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Oct 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Rajbir Singh (No. 14915118L now JC-420619W), 22 Nov 2006*

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 05 Oct 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Bhakta Bandhu Mohanta (No. 14910722M now JC-420620L), 20 Dec 2006*

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Nov 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Hema Ram Jat (No. 14905826K now JC-420621N),
11 Nov 2006*

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Nov 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Rajender (No. 14906846K now JC-420622W), 23 Nov
2006*

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Nov 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Kartar Singh (No. 14908401W now JC-420623Y),
15 Nov 2006*

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 02 Nov 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Nandan Singh (No. 14907368X now JC-420624F),
06 Dec 2006*

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 05 Nov 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Lal Singh (No. 14912538A now JC-420625K), 30 Dec
2006*

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 15 Nov 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Daya Nand Pandey (No. 14903949X now JC-420626M),
01 Dec 2006

Hav Mahipal Singh (No. 14909434N now JC-420627P),
13 Dec 2006*

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Dec 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Dilip Singh (No. 14917706X now JC-420628X),
08 Jan 2007*

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Dec 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Brij Bhan Singh (No. 14908686N now JC-420629A),
01 Dec 2006

Hav Ramji Mahto (No. 14911459Y now JC-420630P), 20 Jan
2007*

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Dec 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Kartar Chand (No. 14907722F now JC-420631X),
23 Dec 2006*

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Dec 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Onkar Singh (No. 14910011M now JC-420632A),
15 Jan 2007*

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 28 Dec 2006 without effect on pay and allowances)

Hav Swarup Singh (No. 14911949M now JC-420633H),
10 Jan 2007*

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Hav P Balaraman (No. 14908412H now JC-420634L), 02 Jan
2007*

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Madan Singh (No. 14908430L now JC-420635N),
02 Jan 2007*

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Geeda Ram (No. 14905251A now JC-420636W), 02 Jan
2007*

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Lotan Singh (No. 14905386F now JC-420637Y), 02 Jan
2007*

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Hav T Radha Krishnan (No. 14908119L now JC-420638F),
04 Jan 2007*

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Raj Kumar Singh (No. 14915340M now JC-420639K),
04 Jan 2007*

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Mangal Sain Chauhan (No. 14906490F now JC-
420640Y), 05 Jan 2007*

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Santosh Kumar (No. 14907928Y now JC-420641F),
05 Jan 2007*

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Shankareppa Hadapad (No. 14908258P now JC-
420642K), 05 Jan 2007*

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Ramayan Pratap Singh (No. 14907735Y now JC-
420643M), 06 Jan 2007*

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Shambhu Bahadur Gurung (No. 14908509N now JC-
420644P), 19 Jan 2007*

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 05 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Jai Bhagwan (No. 14908752L now JC-420645X), 05 Jan 2007*

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances)

ARMOURED CORPS

To be Nb Ris

Dfr Balbir Singh (No. 01079565A now JC-242013H), 20 Dec 2006*

*(Gtd Seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Jagmender Singh (No. 15465740H now JC-242020Y), 01 Jan 2007

Dfr Jora Singh (No. 01075355H now JC-242023M), 01 Jan 2007

Dfr Paramjit Singh (No. 01077729M now JC-242024P), 01 Jan 2007

Dfr Sukhvinderjit Singh (No. 01077063Y now JC-242025X), 11 Jan 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances).

Dfr Achhar Singh (No. 01077596F now JC-242027H), 11 Jan 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances).

Dfr Krishan Pal Singh (No. 01075267M now JC-242030H), 05 Jan 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Ranjeet Singh (No. 01075601H now JC-242032N), 05 Jan 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Sher Singh (No. 01073316L now JC-242036K), 13 Jan 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Shishu Pal Singh (No. 01078160H now JC-242039X), 16 Jan 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Yog Raj (No. 01075002H now JC-242043A), 10 Jan 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 08 Dec 2006 without effect on pay and allowances).

Dfr Hukam Chand (No. 01074991K now JC-242045L), 04 Jan 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances).

Dfr Santosh Kumar (No. 01071819X now JC-242048Y), 04 Jan 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances).

Dfr Gopal Singh (No. 01078880K now JC-242049F), 06 Jan 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances).

Dfr Yashpal Singh (No. 01071867X now JC-242051Y), 04 Jan 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances).

Dfr Hardip Singh (No. 01076679A now JC-242052F), 04 Jan 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances).

Dfr Ramesh Kumar Poonia (No. 01078561X now JC-242056X), 16 Jan 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances).

Dfr Jai Singh (No. 01075570N now JC-242057A), 13 Jan 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances).

Dfr Bhim Singh (No. 01076693M now JC-242058H), 13 Jan 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances).

Dfr Samu Kutty MS (No. 01077896H now JC-242063N), 13 Jan 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances).

Dfr Ashok Kumar (No. 01073542H now JC-242064W), 03 Jan 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances).

Dfr Vijay Kumar (No. 01076677F now JC-242065Y), 03 Jan 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances).

JOSE THOMAS
Under Secy.

REGULAR ARMY ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

No. 246, dated 21st April 2007—The President is pleased to make the following promotions:—

To be Subedar Clk (GD)

Nb Sub Bhubaneswar Samanta (JC-642065M), 01 Feb 2007

Nb Sub Amar Singh (JC-642070X), 03 Feb 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2007 without effect on pay and allces).

Nb Sub Raghubeer Singh (JC-642072H), 01 Feb 2007

Nb Sub Bharat Singh (JC-642318W), 01 Feb 2007

To be Naib Subedar Clk (GD)

Hav Raghunath Das (No. 6379026X now JC-664281A), 01 Feb 2007

Hav Bharat Bhushan (No. 6379338N now JC-664280X), 01 Feb 2007

Hav Jayadev Pradhan (No. 6385581F now JC-664278A), 01 Feb 2007

Hav Chandra Mohan Singh (No. 6387065L now JC-664279H), 01 Feb 2007

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Suraj Bhan (JC-266348Y), 05 Jan 2007/01 Dec 2006*

Nb Sub Som Prakash (JC-266904K), 01 Dec 2006

Nb Sub Kashimasa Tenehalli (JC-267350H), 13 Dec 2006/01 Dec 2006*

Nb Sub Chandra Bhan Yadav (JC-267559N), 02 Dec 2006/01 Dec 2006*

Nb Sub Pratap Chandra Swain (JC-266779L), 10 Mar 2007/01 Jan 2007*

Nb Sub Suresh Chandra Pandey (JC-266989L), 16 Mar 2007/01 Jan 2007*

Nb Sub Har Chand (JC-267612N), 04 Mar 2007/01 Jan 2007*

Nb Sub Chitra Ranjan Gogoi (JC-266726M), 24 Dec 2006/20 Aug 2006*

Nb Sub Rajendra Prasad (JC-266727P), 27 Dec 2006/20 Aug 2006*

Nb Sub Mahendra Prasad (JC-267582F), 17 Feb 2007/01 Feb 2007*

Nb Sub Surendar Kumar (JC-265178N), 22 Jan 2007/01 Jan 2007*

Nb Sub Sukhdev Singh (JC-265809L), 02 Jan 2007/01 Jan 2007*

Nb Sub Ajit Singh (JC-265835M), 15 Feb 2007/01 Jan 2007*

Nb Sub Suresh Chandra Ojha (JC-265971H), 09 Feb 2007/01 Jan 2007*

Nb Sub Sube Singh (JC-266235W), 13 Jan 2007/01 Jan 2007*

Nb Sub Kapil Deo Yadav (JC-266268F), 26 Jan 2007/01 Jan 2007*

Nb Sub Kehri Singh (JC-266373X), 02 Feb 2007/01 Jan 2007*

Nb Sub Radhey Shyam (JC-266875A), 16 Jan 2007/01 Jan 2007*

Nb Sub Phool Singh (JC-267037X), 23 Feb 2007/01 Jan 2007*

Nb Sub Ram Naresh (JC-267294P), 13 Jan 2007/01 Jan 2007*

Nb Sub Shri Bhagwan Yadav (JC-267725W), 09 Jan 2007/01 Jan 2007*

Nb Sub Barmeshwar Pandey (JC-265800W), 27 Feb 2007/01 Jan 2007*

To be Nb Sub

Hav Modu Singh (No. 14396276A now JC-269750N), 03 Jul 2006/01 Apr 2006*

BHM Lal Singh (No. 14367841K now JC-269751W), 25 Jun 2006/01 May 2006*

Hav Mohan Lal (No. 14476527M now JC-269752Y), 07 Jul 2006/01 Jun 2006*

Hav Mahender Kumar (No. 14365856N now JC-269753F), 09 Aug 2006/01 Jun 2006*

Hav Kate Suresh Ishwara (No. 14376491K now JC-269754K), 26 Aug 2006/01 Jun 2006*

Hav Ram Kumar (No. 14376834P now JC-269755M), 09 Oct 2006/01 Jul 2006*

Hav Pradeepan Chalil Mada Furakkal (No. 14368367N now JC-269756P), 11 Oct 2006/01 Jul 2006*

Hav Rajendran Pillai R (No. 14371516F now JC-269757X), 19 Aug 2006/01 Aug 2006*

Hav Balamurugan T (No. 15101026H now JC-269758A), 01 Sep 2006/01 Aug 2006*

BHM Gurmeet Singh (No. 14479067F now JC-269759H), 15 Oct 2006/03 Aug 2006*

BHML Dhurai Pandian (No. 14493917L now JC-269760X), 01 Sep 2006

Hav Ulahannan PJ (No. 14482401H now JC-269761A), 22 Sep 2006/01 Sep 2006*

Hav GS Kanneswara Rao (No. 14481672N now JC-269762H), 27 Sep 2006/01 Sep 2006*

BHM Kulwant Singh (No. 14483406N now JC-269763L), 01 Oct 2006

Hav Raj Bahadur (No. 14495335K now JC-269764N), 01 Oct 2006

Hav Loganathan D (No. 14388387H now JC-269765W), 18 Nov 2006/01 Oct 2006*

Hav Subha Chand (No. 14375010A now JC-269718Y), 28 Jun 2006/01 Apr 2006*

Hav Binoy Kumar Biswas (No. 15105693N now JC-269719F), 30 Jul 2006/09 May 2006*

Hav Ishwar Singh (No. 14361615W now JC-269720W), 10 Sep 2006/01 Jun 2006*

Hav Tarlok Singh (No. 14481309X now JC-269721Y), 24 Aug 2006/01 Jun 2006*

Hav Sube Singh Yadav (No. 14366231L now JC-269722F),
08 Aug 2006/01 Jun 2006*

Hav Abhey Singh Yadav (No. 15101155H now JC-269723K),
22 Jul 2006/01 Jun 2006*

Hav Ram Siya Pal (No. 14372146Y now JC-269724M),
12 Aug 2006/01 Jun 2006*

BHM Joginder Singh (No. 14373195N now JC-269725P),
20 Sep 2006/01 Jun 2006*

Hav Jarnail Singh (No. 14482789Y now JC-269726X),
02 Aug 2006/01 Jun 2006*

Hav Kuldip Singh (No. 14492666A now JC-269727A),
08 Sep 2006/01 Jun 2006*

Hav Jas Bir Singh (No. 15103264N now JC-269728H),
02 Sep 2006/25 Jun 2006*

Hav Kuldip Singh (No. 14391177N now JC-269729L),
08 Aug 2006/01 Aug 2006*

Hav Rajendra Singh (No. 14481590L now JC-269730A),
10 Oct 2006/15 Aug 2006*

BHM Avtar Singh (No. 14374349F now JC-269731H),
25 Sep 2006/01 Sep 2006*

Hav Naresh Chandra Mohanty (No. 14376964X now JC-
269732L), 10 Oct 2006/01 Sep 2006*

Hav Rakesh Babu (No. 14378936K now JC-269733N),
18 Oct 2006/01 Oct 2006*

*(Gtd seniority wef)

P RAMA SASTRY
Under Secy.

No. 247, dated 20th Apr 2007—The President is pleased to
make the following substantive promotions :—

REGULAR ARMY

CORPS OF ENGINEERS

BOMBAY ENGINEER GROUP

To be Subedar Major (GD)

Sub/GD Inder Singh (JC-347996F), 02 Sep 2006

Sub/GD Raja Singh (JC-347986X), 01 Sep 2006

Sub/GD Rama Prasad (JC-348039H), 07 Sep 2006

Sub/GD Parminderjit Singh (JC-348180K), 01 Nov 2006

Sub/GD Ram Kishan Saini (JC-348046Y), 02 Nov 2006

Sub/GD Ishwar Singh Sharma (JC-348110L), 02 Dec 2006

To be Subedar Major (Clk GD)

Sub Clk/GD Mil Mahipal Singh (JC-347273M), 03 Oct 2006

Sub Clk/GD Upendra Nath Rai (JC-347291P), 26 Jul 2006

Sub Clk/GD Ramdiya Patwa (JC-347318F), 03 Oct 2006

Sub Clk/GD Satnam Chand Kamboj (JC-347347W), 06 Oct
2006

Sub Clk/GD Jugal Kishore Gupta (JC-347501K), 02 Sep
2006

Sub Clk/GD Resham Singh (JC-347395W), 18 Sep 2006

Sub Clk/GD Karambir Singh (JC-347212P), 12 Oct 2005

Sub Clk/GD Ramesh Chand (JC-347362L), 02 Nov 2006

Sub Clk/GD Ram Dayal Sharma (JC-347496K), 26 Oct 2006

Sub Clk/GD Sher Singh Rawal (JC-347450F), 01 Dec 2006

Sub Clk/GD Om Prakash (JC-347455A), 01 Dec 2006

To be Subedar (GD)

Nb Sub/GD Khalil Mohd (JC-349249P), 15 May 2006

Nb Sub/GD Islamuddeen (JC-349262Y), 04 May 2006

Nb Sub/GD Sunil Shamrao Sasane (JC-349303X), 10 Jul
2006

Nb Sub/GD Patle Gorelal Likhan Lal (JC-349304A), 10 Jul
2006

Nb Sub/GD Labh Singh (JC-349329M), 08 Aug 2006

Nb Sub/GD Mohd Wasiullah Ansari (JC-349338N), 07 Sep
2006

Nb Sub/GD Charan Singh (JC-349339W), 12 Sep 2006

Nb Sub/GD Manjeet Singh (JC-349373W), 06 Sep 2006

Nb Sub/GD Jagjit Singh (JC-349375F), 11 Sep 2006

Nb Sub/GD Shahaji Dadu Shinde (JC-349331K), 12 Sep 2006

Nb Sub/GD Nimbalkar Malharrao Anandrao (JC-349372N),
13 Sep 2006

Nb Sub/GD Bahadur Singh (JC-349328K), 16 Sep 2006

Nb Sub/GD Gulab Din (JC-349337L), 18 Sep 2006

Nb Sub/GD Waghmode Balkrishna Jagannath (JC-349340L),
23 Sep 2006

Nb Sub/GD Sher Mohamad (JC-349355N), 13 Sep 2006

Nb Sub/GD Kolge Ganpat Rambhau (JC-349348X), 12 Sep
2006

Nb Sub/GD Gurdial Singh (JC-349354L), 12 Sep 2006

Nb Sub/GD Pawar Shankar Raghunath (JC-349418L),
12 Sep 2006

Nb Sub/GD Darshan Singh (JC-349351X), 12 Sep 2006

Nb Sub/GD Vishwanathan PV (JC-349332M), 06 Sep 2006

Nb Sub/GD Dev Karan Singh (JC-349327F), 07 Sep 2006

Nb Sub/GD Balwant Singh (JC-349353H), 17 Sep 2006

Nb Sub/GD Sambaji Balu Bhosle (JC-349336H), 16 Sep 2006

Nb Sub/GD Puran (JC-349356W), 16 Sep 2006	To be Subedar (Clk/GD)
Nb Sub/GD Sagar Singh (JC-349389F), 03 Oct 2006	Nb Sub/Clk GD Lal Singh (JC-348682M), 09 Nov 2006
Nb Sub/GD Lalan Singh (JC-349400P), 03 Oct 2006	Nb Sub/Clk GD Baljeet Singh (JC-348675W), 01 Dec 2006
Nb Sub/GD Gurpal Singh (JC-349379X), 03 Oct 2006	Nb Sub/Clk GD Shiwajee Choudhary (JC-348676Y), 01 Dec 2006
Nb Sub/GD Om Prakash (JC-349312Y), 23 Oct 2006	Nb Sub/Clk GD Virender Singh (JC-348677F), 01 Dec 2006
Nb Sub/GD Gaikwad Dilip Atmaram (JC-349374Y), 30 Sep 2006	Nb Sub/Clk GD Kunwar Lal (JC-348683P), 01 Dec 2006
Nb Sub/GD Thitame Dattatraya Rayabhan (JC-349376K), 01 Oct 2006	Nb Sub/Clk GD Jai Pal (JC-348684X), 01 Dec 2006
Nb Sub/GD Janak Raj (JC-349386N), 05 Oct 2006	Nb Sub/Clk GD Shamsher Singh (JC-348685A), 01 Dec 2006
Nb Sub/GD Manohar Singh (JC-349383A), 01 Oct 2006	Nb Sub/Clk GD Balbir Singh (JC-348686H), 07 Dec 2006
Nb Sub/GD Ranjit Singh (JC-349421L), 01 Oct 2006	Nb Sub/Clk GD Lehna Singh (JC-348695K), 01 Nov 2006
Nb Sub/GD Imtyal Ali Shah (JC-349377M), 01 Oct 2006	Nb Sub/Clk GD Ramesh Kumar Sharma (JC-348681K), 01 Nov 2006
Nb Sub/GD Jugal Kishor Sharma (JC-349401X), 03 Oct 2006	Nb Sub/Clk GD Ram Karan Kaushik (JC-348673L), 02 Nov 2006
Nb Sub/GD Sawran Singh (JC-349402A), 01 Oct 2006	Nb Sub/Clk GD Girish Chandra (JC-348646F), 27 Jun 2006
Nb Sub/GD Jagir Singh (JC-349399L), 01 Oct 2006	Nb Sub/Clk GD Jodh Singh (JC-349761N), 04 Jul 2006
Nb Sub/GD Ram Niwas (JC-349382X), 01 Oct 2006	Nb Sub/Clk GD Kalam Singh (JC-348650K), 02 Jul 2006
Nb Sub/GD Desai Nanaso Dattu (JC-349362K), 02 Oct 2006	Nb Sub/Clk GD Parasnath Pandey (JC-348654A), 01 Sep 2006
Nb Sub/GD Bant Singh (JC-349371L), 03 Oct 2006	Nb Sub/Clk GD Satyawar (JC-348657N), 01 Sep 2006
Nb Sub/GD Ranjit Singh (JC-349364P), 06 Oct 2006	Nb Sub/Clk GD Laxmi Narain Dubey (JC-348689H), 01 Sep 2006
Nb Sub/GD Nikam Shrirang Nirvriti (JC-349334X), 01 Aug 2006	Nb Sub/Clk GD Ram Babu (JC-348666P), 01 Aug 2006
Nb Sub/GD Mustak Hayat Maw (JC-349342W), 09 Sep 2006	Nb Sub/Clk GD Nagendra Bahadur Singh (JC-348665M), 04 Sep 2006
Nb Sub/GD Milind Arun Naik (JC-349367H), 05 Oct 2006	Nb Sub/Clk GD Om Prakash (JC-348679M), 03 Oct 2006
Nb Sub/GD Barge Sambhaji Maruti (JC-349380M), 01 Oct 2006	Nb Sub/Clk GD Ranjeet Singh (JC-348680F), 03 Oct 2006
Nb Sub/GD Kamlesh Kumar (JC-349446X), 03 Nov 2006	Nb Sub/Clk GD Jagannath Sachdeva (JC-348670X), 09 Oct 2006
Nb Sub/GD Patil Bandu Pandurang (JC-349391Y), 04 Nov 2006	
Nb Sub/GD Lakade Jagannath Khandu (JC-349346M), 24 Nov 2006	To be Subedar (SKT)
Nb Sub/GD Yogesh Watve (JC-349439F), 25 Nov 2006	Nb Sub/SKT Daulat Ram (JC-349029L), 05 Dec 2006
Nb Sub/GD Kulwant Singh (JC-349403H), 22 Dec 2006	To be Nb Sub (SKT)
Nb Sub/GD Gurnam Singh (JC-349390W), 11 Dec 2006	Hav/SKT Narendra Singh (No. 1579287A now JC-350388L), 04 Dec 2006
Nb Sub/GD Charanjit Singh (JC-349408F), 01 Dec 2006	(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2006 without effect on pay & allces)
Nb Sub/GD Babar Babaso Tukaram (JC-349410Y), 01 Dec 2006	Hav/SKT Ummed Singh Rathore (No. 1586655M now JC-350422A), 12 Dec 2006
Nb Sub/GD Gawas Vithal Krishna (JC-349411F), 01 Dec 2006	(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2006 without effect on pay & allces)
Nb Sub/GD Mukhtar Singh (JC-349413M), 01 Dec 2006	
Nb Sub/GD Balwant Singh (JC-349424Y), 13 Dec 2006	
Nb Sub/GD Diwani Ram (JC-349393K), 01 Dec 2006	

To be Nb Sub (Clk/GD)

Hav/Clk GD Ashok Mane (No. 1575256H now JC-350380Y),
24 Nov 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2006
without effect on pay & allces)

Hav/Clk GD Rajput Survir Singh Raghuvir Singh (No.
1570782X now JC-350381F), 12 Dec 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 09 Sep 2006
without effect on pay & allces)

Hav/Clk GD Hans Kumar (No. 1571603Y now JC-350389N),
18 Dec 2006

Hav/Clk GD Madan Lal (No. 1575651W now JC-350390H),
29 Dec 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2006
without effect on pay & allces)

Hav/Clk GD Amar Singh Shekhawat (No. 1575650N now
JC-350400F), 01 Dec 2006

Hav/Clk GD Ranbir Singh (No. 1575654K now JC-350401K),
04 Dec 2006

Hav/Clk GD Harvansh Singh (No. 1575658A now
JC-350402M), 01 Dec 2006

Hav/Clk GD Subodh Kumar (No. 1575685K now JC-
350403P), 01 Dec 2006

Hav/Clk GD Ravinder Kumar Saini (No. 1575817M now
JC-350404X), 01 Dec 2006

Hav/Clk GD Dhanajay Boro (No. 1575889W now JC-
350405A), 01 Dec 2006

Hav/Clk GD Ramesh Chandra (No. 1575926Y now JC-
350406H), 21 Dec 2006

Hav/Clk GD Naresh Kumar (No. 1575931K now JC-350407L),
23 Dec 2006

Hav/Clk GD Ram Gopal Singh (No. 1575937L now JC-
350408N), 12 Dec 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2006
without effect on pay & allces)

Hav/Clk GD Rajendra Singh Rautela (No. 1575939W now
JC-350423H), 09 Jan 2007

Hav/Clk GD Jai Prakash Rai (No. 1575951X now JC-350424L),
16 Jan 2007

Hav/Clk GD Karri Danayya (No. 1575969N now JC-
350425N), 05 Jan 2007

Hav/Clk GD Nakka Markanda Rao (No. 1575971L now JC-
350426W), 05 Jan 2007

Hav/Clk GD Lankavalasa Ananta Rao (No. 1575972N now
JC-350427Y), 11 Jan 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007
without effect on pay & allces)

To be Nb Sub (GD)

Hav/GD Majhi Sawaiyan (No. 15571410P now JC-350378F),
02 Jan 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2005
without effect on pay & allces)

Hav/GD Chavan Shivaji Ganpat (No. 1556851X now JC-
350379K), 02 Dec 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2006
without effect on pay & allces)

Hav/GD Naik Abhaykumar manohar (No. 1559019P now
JC-350382K), 13 Dec 2006

Hav/GD Ram Narayan Prajapati (No. 1568826L now JC-
350383M), 27 Nov 2006

Hav/GD Barge Sanjay Ramchandra (No. 1568944Y now JC-
350384P), 28 Nov 2006

Hav/GD Sukhchain Singh (No. 1559086A now JC-350385X),
27 Nov 2006

Hav/GD Kale Anandrao Raghunath (No. 1559365L now
JC-350386A), 02 Dec 2006

Hav/GD Gurmej Singh (No. 1569751L now JC-350387H),
27 Nov 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2006
without effect on pay & allces)

Hav/GD Jagdish Chandra (No. 1569960P now JC-350391L),
13 Dec 2006

Hav/GD Pawar Baban Bhau Saheb (No. 1567709N now
JC-350392N), 11 Dec 2006

Hav/GD Singara Singh (No. 1567854L now JC-350393W),
27 Nov 2006

Hav/GD Ram Bhau (No. 1568116N now JC-350394Y),
12 Dec 2006

Hav/GD Sewak Singh (No. 1568155M now JC-350395F),
25 Dec 2006

Hav/GD Biradar Laxman Mohan Rao (No. 1568173P now
JC-350396K), 25 Nov 2006

Hav/GD Lakhbir Singh (No. 1568374N now JC-350397M),
25 Nov 2006

Hav/GD Jog Raj (No. 1568406L now JC-350398P), 22 Nov
2006

Hav/GD Sujit Singh (No. 1568596H now JC-350399X),
27 Nov 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2006
without effect on pay & allces)

Hav/GD Feru Singh (No. 1559318N now JC-350409W),
11 Jan 2007

Hav/GD Arjun Singh (No. 1569251N now JC-350410L),
01 Dec 2006

Hav/GD Md Hasnain Khan (No. 1569593F now JC-350411N), 01 Dec 2006

Hav/GD Maharaj Singh (No. 1569687Y now JC-350412W), 12 Dec 2006

Hav/GD Chanan Singh (No. 1569808P now JC-350413Y), 08 Jan 2007

Hav/GD Ranjit Singh (No. 1570145F now JC-350414F), 22 Jan 2007

Hav/GD Resham Singh (No. 1570151P now JC-350415K), 01 Dec 2006

Hav/GD Gambhir Singh (No. 1570585P now JC-350416M), 21 Dec 2006

Hav/GD Kad Balu Namdeo (No. 1570737L now JC-350417P), 01 Dec 2006

Hav/GD Om Prakash (No. 1571186X now JC-350418X), 09 Jan 2007

Hav/GD Ghadge Pralhad Shivaji (No. 1571214Y now JC-350419A), 23 Dec 2006

Hav/GD Vijay Singh (No. 1571234M now JC-350420P), 01 Dec 2006

Hav/GD Arvind Singh (No. 1571282M now JC-350421X), 01 Dec 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2006 without effect on pay & allces)

Hav/GD Shiv Narayan Shriwas (No. 1559812K now JC-350428F), 06 Jan 2007

Hav/GD Muhammad Shareef (No. 1571583W now JC-350429K), 01 Jan 2007

Hav/GD Narinder Kumar (No. 1571700W now JC-350430Y), 09 Jan 2007

Hav/GD Shri Krishan (No. 1571863K now JC-350431F), 08 Jan 2007

Hav/GD Jagjit Singh (No. 1572085W now JC-350432K), 02 Jan 2007

Hav/GD Ashok Kumar Jha (No. 1572268M now JC-350433M), 02 Jan 2007

Hav/GD Yashpal Sharma (No. 1573255F now JC-350434P), 06 Jan 2007

Hav/GD Nizamuddin (No. 1558628M now JC-350435X), 10 Jan 2007

Hav/GD Amrik Singh (No. 1558836F now JC-350436A), 06 Jan 2007

Hav/GD Sukha Lal (No. 1559201P now JC-350437H), 10 Jan 2007

Hav/GD Angrej Singh Yadav (No. 1569068L now JC-350438L), 08 Jan 2007

Hav/GD Surjit Singh Yadav (No. 1558477Y now JC-350439N), 01 Jan 2007

Hav/GD Nirmal Singh (No. 1559565F now JC-350440H), 08 Jan 2007

Hav/GD Shinde Shivaji Sukhdev (No. 1558163X now JC-350441L), 02 Jan 2007

Hav/GD Daljit Singh (No. 1567824N now JC-350442N), 01 Jan 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay & allces)

BANGAL ENGINEER GROUP

To be Nb Sub (GD)

Hav Ranbir Singh (No. 1469485H now JC-329969P), 12 Dec 2006#

Hav Nagendra Singh (No. 1484295N now JC-329970K), 19 Dec 2006*

Hav Surya Kumar Chaudhary (No. 1466965F now JC-329971M), 14 Dec 2006*

Hav Nirmal Bara (No. 1469259L now JC-329972P), 18 Dec 2006*

Hav Gajender Singh Panwar (No. 1467716P now JC-329973X), 16 Dec 2006*

Hav Om Prakash (No. 1471327M now JC-329974A), 21 Dec 2006*

Hav Vijoy Victor Minj (No. 1471757W now JC-329975H), 18 Dec 2006*

Hav Prem Chand Dhot (No. 1485873K now JC-329976L), 01 Jan 2007*

Hav Bishan Singh (No. 1473133H now JC-329977N), 02 Jan 2007*

Hav Dipak Chandra Shaha (No. 1473770Y now JC-329978W), 02 Jan 2007*

Hav Avay Kumar Singh (No. 1473782A now JC-329979Y), 03 Jan 2007*

Hav Jagdish Raj (No. 1468901P now JC-329980N), 04 Nov 2006**

Hav Upendra Kumar Swain (No. 1469267K now JC-329981W), 10 Nov 2006**

Hav Joginder Singh (No. 1469569W now JC-329982Y), 01 Jan 2007\$

Hav Sukhdev Singh (No. 1469732L now JC-329983F), 02 Jan 2007\$

Hav Jagat Singh (No. 1469814N now JC-329984K), 02 Jan 2007\$

Hav Kedar Mandal (No. 1469891H now JC-329985M), 01 Jan 2007\$

Hav Brind Bihari Singh (No. 1470000F now JC-329986P),
01 Jan 2007\$

To be Nb Sub Clk (GD)

Hav Nafe Singh Dagar (No. 1473385P now JC-329987X),
01 Nov 2006**

\$(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Feb 2005
without effect on pay & allces)

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Oct 2006
without effect on pay & allces)

** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2006
without effect on pay & allces)

\$(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007
without effect on pay & allces)

ROSY SHARMA

Dy. Secy

No. 248, dated 24th April 2007—The President is pleased
to make the following promotion:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Gp Capt to be Air Cmde (& equivalent)

Navin Rattan (MR-03665F) (AF-14242), 01 Oct 2006 with
notional seniority without effect on pay & pension from
01 Sep 2006.

Capt to be Major

Prathu Rastogi (MS-13917W) (MR-)7993M), AMC, 24 Nov
2003

Ningthoujam Rishikanta (MR-08119Y), AMC, 21 Jan 2006

Shailendra Singh (MR-08227H), AMC, 11 Feb 2006

Kamble Vikas Keshav (MS-13371L) (MR-08423N), AMC,
01 Feb 2003

(MoD Notification published in the Gazette of India dated
24 Apr 2004 in so far as it relates to the officer is hereby
cancelled)

Deepali Tripathi (MS-13850H) (MR-08420P), AMC, 01 Nov
2003

(MoD Notification published in the Gazette of India dated
25 Dec 2004 in so far as it relates to the officer is hereby
cancelled)

Mohammad Rehan (MS-14101Y) (MR-08282Y), AMC,
02 Feb 2005

(MoD Notification published in the Gazette of India dated
10 Dec 2005 in so far as it relates to the officer is hereby
cancelled)

Anita Rana (MS-13910M) (MR-08419A), AMC, 30 May
2003

(MoD Notification published in the Gazette of India dated
24 Apr 2004 in so far as it relates to the officer is hereby
cancelled)

Vandana Rana (MS-13951W) (MR-08418X), AMC, 01 Jun
2002

(MoD Notification published in the Gazette of India dated
25 Dec 2004 in so far as it relates to the officer is hereby
cancelled)

Varma Tarun Nand Kishore (MS-13982W) (MR-08417P),
AMC, 12 Oct 2003

(MoD Notification published in the Gazette of India dated
30 Apr 2005 in so far as it relates to the officer is hereby
cancelled)

Anil Kumar Chandra (MS-13681M) (MR-08206M), AMC,
05 Oct 2001

(MoD Notification published in the Gazette of India dated
29 Jun 2002 in so far as it relates to the officer is hereby
cancelled)

Naveen Agrawal (MS-14098K) (MR-08430Y), AMC, 25 Jan
2005.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated
03 Sep 2005 in so far as it relates to the officer is hereby
cancelled)

Abir Gogoi (MS-14132Y) (MR-08213H), AMC, 29 Jul 2004

(MoD Notification published in the Gazette of India dated
30 Apr 2005 in so far as it relates to the officer is hereby
cancelled)

Pushkarna Amit Ravi Kumar (MS-14097F) (MR-08262L),
AMC, 23 Jan 2005

(MoD Notification published in the Gazette of India dated
03 Sep 2005 in so far as it relates to the officer is hereby
cancelled)

To be Capt

Capt Bidhan Chander (MR-08125M), AMC, 30 Aug 2005

Capt Vivek Gupta (MR-08148N), AMC, 27 Dec 2005

Capt Vinay Pal Singh (MR-08153Y), AMC, 27 Dec 2005

Capt Vikram Singh (MR-08165N), AMC, 27 Dec 2005

Capt Chandan Kumar Thakur (MR-08173M), AMC, 27 Dec
2005

Capt Manoj Kumar Gupta (MR-08193A), AMC, 27 Dec 2005

Sqn Ldr to be Wg Cdr

Gopal Krishna Misra (MR-06812K) (AF-23418), AMC,
16 Dec 2004

Biju M John (MR-06732M) (AF-23159), AMC, 04 Jan 2007

A. Dutta (MR-06766A) (AF-23456), AMC, 04 Jan 2007

SK Patnaik (MR-06734X) (AF-23410), AMC, 04 Jan 2007

To be Sqn Ldr

Anil Kumar (MS-14256N) (MR-08281W), (26069), AMC, 22 Jul 2004.

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 10 Dec 2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

SURG Lt to SURG Lt CDR

Mahesh Singh Hada (MS-14377P) (MR-08248Y), (75785), AMC, 21 Jan 2006

Rajurkar Makarand Trimbakrao (MS-14323N) (MR-08250W), (75793), AMC, 21 Jan 2006

RAJESH KAMRAN
Brig
Dy DGAFMS (Pers)

MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 249, date 25th April 2007—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Substantive Brigadier

Rank, Name, IC No., Arm and date of Subs Rank

Col Mishra Atul (IC-31909), EME, 01 Jun 2006

Col Sunil Kumar Sharma (IC-33722), EME, 01 Sep 2006 with seniority from 01 Jun 2006 without effect on pay and pension.

Col AKS Chandele (IC-31079), AOC, 01 Jun 2006

Col RG Ghatpande (IC-34724), Sigs, 01 Jun 2006

Col Sandeep Kumar (IC-31559), AEC, 01 Jun 2006

Col Nk Datta (IC-30802), EME, 01 Jul 2006 with seniority from 01 Jun 2006 without effect on pay and pension.

Col Srivastva Ajit (IC-31632), Engrs, 01 Jun 2006

Col Guleria KSS (IC-36524), ARMD, 01 Jun 2006

Col Chadha RC (IC-36527), AC, 01 Jun 2006

Col Dabbas Rajinder Singh (IC-36528), EME, 01 Jul 2006 with seniority from 01 Jun 2006 without effect on pay and pension.

Col SK Sangwan (IC-36543), Mech/Inf, 01 Jun 2006

Col Natu VA (IC-36551), 9 GR, 01 Jun 2006

Col Vam Hussain (IC-36579), Arty, 01 Jun 2006

Col Sahni Arun Kumar, VSM (IC-31633), Arty, 01 Jun 2006

Col Panwar Ravindra Singh (IC-31634), Sigs, 01 Jun 2006

Col Sangra Yashwant (IC-31635), Arty, 01 Jun 2006

Col Om Prakash (IC-31638), Kumaon, 01 Jun 2006

Col Rana Ramesh Kumar (IC-31640), Raj/Rif, 01 Jun 2006

Col padhi NP (IC-31642), Engrs, 01 Jun 2006

Col Kumar Venugopal Jai (IC-31644), Sigs, 01 Jul 2006, with seniority from 01 June 2006 without effect on pay and pension.

Col Menon Arjun (IC-31650), ARMD, 01 Jun 2006

Col Bhalla Anil Kumar (IC-31653), ARMD, 01 Jun 2006

Col Bhattacharya G (IC-31657), Arty/(GC), 01 Jun 2006

Col Raja Velu UM (IC-31658), Raj/Rif, 01 Jun 2006

Col Sen AK (IC-31660), 11 GR, 01 Jun 2006

Col Nandan Rakesh (IC-31663), AAD, 01 Jun 2006

Col Sharma PR (IC-31667), AAD, 01 Jun 2006

Col Vrinder Singh, VrC, SM (IC-31669), 8 JAKLI, 01 Jun 2006

Col Sangwan BS (IC-31677), Madras, 01 Jun 2006

Col Patial MS (IC-31680), Punjab, 01 Jun 2006

Col Pillai MS, SM (IC-31684), Engrs (GC), 01 Jun 2006

Col Sharma Rupjyoti (IC-31694), Jat, 01 Jun 2006

Col Ranjan Abhay (IC-31695), Sikh, 01 Jun 2006

Col Tuli Ashok Kumar (IC-31698), AAD, 01 Jun 2006

Col Bhupinder Singh (IC-31704), Kumaon, 01 Jun 2006

Col Sandeep Singh (IC-31705), JAK/Rif, 01 Jun 2006

Col Ravindranath PS (IC-31712), 1 GR, 01 Jun 2006

Col Misra Arun Kumar, SM (IC-31715), Arty/GC, 01 Jun 2006

Col kalia VM (IC-31719), Arty/(GC), 01 Jun 2006

Col Vashishta Deepak (IC-31720), Sikh, 01 Jun 2006

Col Kaushik PK (IC-31724), PARA, 01 Jun 2006

Col Choudhury KKR, VSM* (IC-31729), Mahar, 01 Jun 2006

Col Bhalla Rajiv (IC-31736), Jat, 01 Jun 2006

Col Krishnan CA (IC-31739), 4 GR, 01 Jun 2006

Col Bhardwaj Pramod (IC-31754), Sikh, 01 Jun 2006

Col Balakrishnan AV (IC-31758), AOC, 01 Jul 2006 with seniority from 01 Jun 2006 without effect on pay and pension

Col Manohar Singh (IC-31762), DOGRA, 01 Jun 2006

Col Pannu BS (IC-31764), Bihar, 01 Jun 2006

Col Ganapathy PP, SM (IC-31765), Mech/Inf, 01 Jun 2006

Col Chande HM (IC-31791), Arty, 01 Jun 2006

Col Mehta Ravi Datt (IC-31794), Int, 01 Jun 2006

Col Vivekanandan P (IC-31795), AAD, 01 Jun 2006

Col Kumbar KS (IC-31797), Madras, 01 Jun 2006

Col Sarkar SK (IC-31817), Madras, 01 Jun 2006
 Col Mehta Ajay Kumar (IC-31852), Mech/Inf, 01 Jun 2006
 Col Sen Prabal Chandra, VSM (IC-31864), EME, 01 Jul 2006, with seniority from 01 Jun 2006 without effect on pay and pension.

Col Sarabjit Singh (IC-31896), ARMD, 01 Jun 2006
 Col Tikoo PK (IC-31911), MF, 01 Jun 2006
 Col Tiku Kuldip Kumar (IC-35387), Engrs, 01 Jun 2006
 Col Dutta VK (IC-35390), Engrs (GD), 01 Jun 2006
 Col Ahuja Inderpal Singh (IC-35419), Engrs, 01 Jun 2006
 Col Lal Ajay Kumar (IC-35454), EME, 01 Jul 2006 with seniority from 01 Jun 2006 without effect on pay and pension
 Col Deosthale JK (IC-36504), JAG, 01 Jun 2006
 Col Mattu RK (IC-37297), Engrs, 01 Jun 2006
 Col Vashisht Sanjeev, SM (IC-37305), Engrs, 02 Jun 2006
 Col Anil Sharma (IC-36659), Arty, 24 Jun 2006
 Col Mishra Ranjeet (IC-36679), Maratha LI, 01 Jul 2006
 Col Roy PK (IC-36680), Sikh, 01 Jul 2006
 Col Dahiya Rumel (IC-34001), Kumaon, 01 Jul 2006
 Col Rai man Mohan Singh (IC-34003), Engrs (GC), 01 Jul 2006
 Col Thind KJS (IC-34005), ARMD, 01 Jul 2006
 Col Bawa RK (IC-34006), Mech/Inf, 01 Jul 2006
 Col Gujral MS (IC-34007), Engrs, 01 Jul 2006

Col Johar Harminder Singh (IC-34011), Sigs, 01 Aug 2006 with seniority from 01 Jul 2006 without effect on pay and pension.

Col Adrinwalla XP (IC-34012), 87 AR, 01 Jul 2006
 Col Amit Sharma (IC-34014), 45 CAV, 01 Jul 2006
 Col Manik Sabharwal, SM (IC-34015), Engrs, 01 Jul 2006
 Col Singh Kamal Jit (IC-34016), Arty, 01 Jul 2006
 Col Bawa Jasbir Singh, VSM (IC-34018), Assam, 01 Jul 2006
 Col Hooda DS, VSM* (IC-34019), 04 GR, 04 Jul 2006
 Col Behl Pramod (IC-34021), Grenadiers, 15 Jul 2006
 Col Chakravarty Anirudha (IC-34028), Rajput, 01 Aug 2006
 Col Jamwal RS (IC-34029), JAK/Rif, 01 Aug 2006
 Col Azad Sameer (IC-34035), Arty/(GC), 01 Aug 2006
 Col Kumar PR (IC-34036), Arty/(GC), 01 Aug 2006
 Col Devinder Singh, SM (IC-34046), Arty, 01 Aug 2006
 Col Satyanarayana GV (IC-34048), 5 GR, 01 Aug 2006
 Col Mhaisalkar HN (IC-34057), Sikh, 01 Aug 2006
 Col Mohan Amulya, VSM (IC-34066), Rajput, 01 Aug 2006

Col Kuldip Singh (IC-34084), ARMD, 18 Aug 2006
 Col Sharma Bal Krishan, SM (IC-34086), Sikh LI, 29 Aug 2006
 Col Raj P MK (IC-34087), ASC, 01 Sep 2006
 Col Singh Kanwaljit (IC-34097), Mech/Inf, 01 Sep 2006
 Col Sachdev HJS (IC-34098), 4 GR, 01 Sep 2006
 Col Narayanan VK (IC-34102), Mech/Inf, 01 Sep 2006
 Col Tripathi AKR (IC-34121), Jat, 01 Sep 2006
 Col Rai RP (IC-34148), ASC, 01 Sep 2006
 Col Nair Sasi Dharan (IC-34152), Raj/Rif, 01 Sep 2006
 Col Singh KD (IC-34164), Madras, 01 Sep 2006
 Col Virendra Kumar (IC-34182), Madras, 01 Sep 2006
 Col Thakur Kushal, YSM (IC-34190), Grenadiers, 01 Sep 2006
 Col Bahuguna R (IC-34194), 1 GR, 01 Sep 2006
 Col Sinha Tara Kant (IC-34212), Kumaon, 01 Sep 2006
 Col Verma Rajiv (IC-34216), Arty, 01 Sep 2006
 Col Grover KS (IC-34220), Arty, 01 Sep 2006
 Col Konickal SK (IC-34226), ASC, 01 Sep 2006
 Col Venugopal KS (IC-34229), Jat, 01 Sep 2006
 Col Balbir Singh (IC-35825), Engrs, 23 Sep 2006
 Col Singh BG (IC-35878), Engrs, 26 Sep 2006

NK PHUKAN
 AMS/MS(X)

DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE

No. 250 Dated 25th Apr 2007.—The President is pleased to make the following promotion.

1. Shri MS Date, Principal Scientific Officer of AAIW, Chanda as Ad-hoc Director in MSQAA, Hyderabad w.e.f. 04 Jan 2007 (F/N).

2. Shri DK Kapil, Principal Scientific Officer of OCRI, Kanpur as Ad-hoc Director in OCRI, Kanpur w.e.f. 15 Dec 2006 (F/N).

3. Shri AK Sharma, Principal Scientific Officer of OCRI, Koraput as Ad-hoc Director in OCRI, Koraput w.e.f. 15 Dec 2006 (F/N).

4. Shri MKV Nair, Principal Scientific Officer of OCRI, (AA) Kirkee, Pune as Ad-hoc Director in OCRI, (AA) Kirkee, Pune w.e.f. 15 Dec 2006 (F/N).

5. Shri KL Khatter, Principal Scientific Officer of HQ DGAQA, New Delhi as Ad-hoc Director in HQ/DGAQA, New Delhi w.e.f. 15 Dec 2006 (F/N).

6. Shri T Chhabra, Principal Scientific Officer of OCRI, Lucknow as Ad-hoc Director in OCRI, Lucknow w.e.f. 15 Dec 2006 (F/N).

7. Smt Sushma Makin, Principal Scientific Officer of HQ DGAQA, New Delhi as Ad-hoc Director in HQ DGAQA, New Delhi w.e.f. 15 Dec 2006 (F/N).

8. Shri BVN Moorthy, Principal Scientific Officer of OCRI, Bangalore as Ad-hoc Director in OCRI, Bangalore w.e.f. 15 Dec 2006 (F/N).

9. Shri VN Shankar, Principal Scientific Officer of OCRI, Bangalore as Ad-hoc Director in OCRI, Bangalore w.e.f. 26 Dec 2006 (F/N).

10. Shri VO Janardhanan, Principal Scientific Officer of OCRI, Bangalore as Ad-hoc Director in OCRI, Bangalore w.e.f. 15 Dec 2006 (F/N).

11. Shri GS Ahluwalia, Principal Scientific Officer of AAIW, Khamaria as Ad-hoc Director in OCRI, Koraput w.e.f. 06 Jan 2007 (F/N).

Sd/- Illegible
Under Secy.

(AIR BRANCH)

No. 251, dated 23rd Apr 2007.—The President is pleased to make the following substantive promotion :—

INDIAN AIR FORCE

AE BRANCH

To be Substantive GP Capt

Rank, Name, Number, BR & Date

GP Capt (ACTG) SK Mittal (17114), AE(L), 14.02.07/01.01.07(NS)

(His name will appear below GP Capt S Singh (16941) AE(L) in The Combined Gradation List)

GP Capt (ACTG) T Sarkar (15643), AE(M), 05.03.06/09.06.05(NS)

(His name will appear between GP Capt MR Thella (15459) AE(L) and KK Dhiman (15292), AE(L) in The Combined Gradation List)

GP Capt (ACTG) VK Goel (16540), AE(M), 26.09.06/04.10.05(NS)

(His name will appear below GP Capt SK Deshpande (16528) AE(L) in The Combined Gradation List)

GP Capt (ACTG) SK Nehra (16740), AE(L), 11.09.06/01.08.06(NS)

(His name will appear below GP Capt MM Dangre (16750) AE(L) in The Combined Gradation List)

GP Capt (ACTG) NG Pathamathan (16945), AE(L), 01.09.06

GP Capt (ACTG) AK Gupta (16942), AE(M), 01.11.06

GP Capt (ACTG) S Singh (16941), AE(L), 01.12.06

LGS BRANCH

To be Substantive GP Capt

GP Capt (ACTG) A Kumar (14963), LGS, 20.02.06

GP Capt (ACTG) KK Chanda (15753), LGS, 19.09.06

GP Capt (ACTG) JV Singh (15758), LGS, 01.10.06

EDN BRANCH

To be Substantive GP Capt

GP Capt (ACTG) BCS Bharathi (16673), EDN, 15.05.06

(His name will appear below GP Capt P Mullick (16669) EDN in The Combined Gradation List)

GP Capt (ACTG) A Kumar (16675), EDN, 01.11.06

KV SHANKAR

Jt. Director of Personnel (Officers)-2(B)

(ARMY BRANCH)

No. 252, dated 24th Apr 2007.—The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 18.08.2003 and to grant him/her Permanent Commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended:—

(REGULAR ARMY)

(PERMANENT COMMISSION)

To be Capt (on Prob)

Prathu Rastogi (MS-13917W), (MR-07993M), AMC with seniority for pay and promotion w.e.f. 24.11.1999. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 12.01.2002 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled.)

The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 22.03.2005 and to grant him/her Permanent Commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended:—

REGULAR ARMY

(PERMANENT COMMISSION)

To be Capt (on Prob)

Abir Gogoi (MS-14132Y), (MR-08213H), AMC, 29.01.2001 with seniority for pay and promotion w.e.f. 29.07.2000. (This includes 06 months of antedate of seniority for House Appointment which will count for pension not for gratuity.) (MoD Notification published in the Gazette of India dated 15.03.2003 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled.)

Anil Kumar Chandra (MS-13681M), (MR-08206M), AMC, 05.10.1999 with seniority for pay and promotion w.e.f. 05.10.1997. (This includes 24 months of antedate for Post Graduate Qualification (MD Medicine), which will count for pension not for gratuity.) (MoD Notification published in the Gazette of India dated 09.03.2002 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled.)

The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 18.07.2005 and to grant him/her Permanent Commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended:—

REGULAR ARMY
(PERMANENT COMMISSION)

To be Capt (on Prob)

Mohammad Rehan (MS-14101Y), (MR-08282Y), AMC, with seniority for pay and promotion w.e.f. 02.02.2001. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 12.10.2002 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled.)

Pushkarna Amit Ravi Kumar (MS-14097F), (MR-08262L), AMC, with seniority for pay and promotion w.e.f. 23.01.2001. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 12.10.2002 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled.)

To be Flt Lt (on Prob)

Anil Kumar (MS-14256N), (MR-08281W), (26069), AMC, 22.01.2001 with seniority for pay and promotion w.e.f. 22.07.2000. (This includes 06 months of antedate of seniority for Hospital Appointment, which will count for pension not for gratuity.) (MoD Notification published in the Gazette of India dated 04.10.2003 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled.)

To be Surg Lt (on Prob)

Mahesh Singh Hada (MS-14377P), (MR-08248Y), (75785), AMC, with seniority for pay and promotion w.e.f. 21.01.2002. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 30.04.2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled.)

Rajurkar Makarand Trimbakrao (MS-14323N), (MR-08250W), (75793), AMC, with seniority for pay and promotion w.e.f. 21.01.2002. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 25.01.2003 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled.)

The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 10.01.2006 and to grant him/her Permanent Commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended:—

(REGULAR ARMY)
(PERMANENT COMMISSION)

To be Capt (on Prob)

(Miss) Sarika Garg (MS-14586M), (MR-08304M), AMC, with seniority for pay and promotion w.e.f. 17.03.2003. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 30.04.2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled.)

The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 15.06.2006 and to grant him/her Permanent Commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended:—

REGULAR ARMY
(PERMANENT COMMISSION)

To be Capt

Capt Vikas Mathur (MS-14429A), (MR-08408N), AMC, 30 Jan 2002

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 04 Oct 2003 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled.)

Balvinder Singh (MS-14351A), (MR-08406H), AMC, 19.02.2002. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 04.10.2003 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled.)

Capt Bikram Bhardwaj (MS-14436W), (MR-08409W), AMC, 15.03.2002. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 12.04.2003 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled.)

Capt Jitendra Kumar Sharma (MS-14317A), (MR-08412W), AMC, 21.01.2002. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 05.06.2004 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled.)

Capt Neikhrietuonuo Liayu (MS-14333X), (MR-08413Y), AMC, 21.01.2002. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 13.12.2003 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled.)

Capt Khamkar Purabi Nilesh (MS-14343F), (MR-08415K), AMC, 21.01.2002. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 04.10.2003 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled.)

Capt Varma Tarun Nand Kishore (MS-13982W), (MR-08417P), AMC, 12.10.1999. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 01.12.2001 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled.)

Capt Vandana Rana (MS-13951W), (MR-08418X), AMC 01.06.2000 with seniority for pay and promotion wef 01.06.1998. (This includes 24 months antedate for Post Graduate Qualification M.D. (Pathology, which will count for pension not for gratuity) (MoD Notification published in the Gazette of India dated 12.10.2002 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled.)

Capt Anita Rana (MS-13910M), (MR-08419A), AMC 30.11.1999 with seniority for pay and promotion wef 30.05.1999. (this includes 06 months antedate for Hospital Appointment, which will count for pension not for gratuity) (MoD Notification published in the Gazette of India dated 12.10.2002 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled.)

Capt Vikrant V Gadkari (MS-14524M), (MR-08425N), AMC 17-02-2003 with seniority for pay and promotion wef 17.08.2002 (this includes 06 months antedate for Hospital Appointment, which will count for pension not for gratuity) (MoD Notification published in the Gazette of India dated 17.06.2006 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled.)

Capt Arun Prasad B (MS-14700Y), (MR-08400F), AMC 10.12.2003. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 03.09.2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled.)

Capt Naveen Agrawal (MS-14098K), (MR-08430Y), AMC 25.01.2001. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 12.10.2002 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled.)

Capt Avinash Surana (MS-14652K), (MR-08386A), AMC 28.05.2003. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 30.04.2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled.)

Capt R Praveen (MS-14699P), (MR-08391L), AMC 09.12.2003. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 03.09.2005 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled.)

Capt Deepali Tripathi (MS-13850H), (MR-08420P), AMC 01.11.1999. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 12.01.2002 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled.)

Capt Kamble Vikas Keshav (MS-13371L), (MR-08423N), AMC 01.02.1999. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 23.12.2000 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled.)

To be Capt (on Probation)

Lt. Chandra Shekhar Singh Chilwal (MS-14102F), (MR-08429K), AMC 05.02.2001.

(Promoted to The Rank of Capt wef 05.04.2001 on completion of internship training.) (MoD Notification published

in the Gazette of India dated 12.04.2003 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled.)

RAJESH KAMRAN
Brig
Dy DGAFMS (Pers)

ARMY BRANCH

CORRIGENDUM

No. 253, dated 20 Apr 2007.—In the Ministry of Defence Notification No. 581 dated 27 Oct 2006 published in the Gazette of India serial No. 47 dated 25 Nov 2006 under heading "Regular Army" Sub heading "Infantry" The Mechanised Infantry Regiment below:—

To be Naib Subedar

For Hav Raj Kumar (No 14906415X now JC-420524W), 05 Jun 2000*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 31 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Read Hav Raj Kumar (No 14906415X now JC-420524W), 05 Jun 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 31 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

JOSE THOMAS
Under Secy.